

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 1—अगस्त 7, 2015 (श्रावण 10, 1937)

No. 31] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 1—AUGUST 7, 2015 (SRAVANA 10, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित  
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Government Officers issued by  
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 2015

सेना सचिव शाखा

सं. 181, दिनांक 7 जुलाई 2015—राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 30351 जनरल दलबीर सिंह, पी वी एस एम, यू वाई एस एम, ए वी एस एम, वी एस एम, ए डी सी, थल सेना अध्यक्ष को 01 अगस्त 2014 (पूर्वाहन) से अवैतनिक पदेन कर्नल ऑफ राष्ट्रीय राईफल्स के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 34838 लेफ्टिनेन्ट जनरल जे जॉर्ज, वी एस एम को 01 नवम्बर 2014 (पूर्वाहन) से तोपखाना रेजिमेंट के कर्नल कमांडेंट के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 35226 लेफ्टिनेन्ट जनरल के जी कृष्णा, एस एम, वी एस एम को 01 नवम्बर 2014 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ ग्निनेडियर रेजिमेंट के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 34379 लेफ्टिनेन्ट जनरल राजीव भाटिया, ए वी एस एम को 01 जून 2015 (पूर्वाहन) से आर्मी एयर डिफेन्स कोर के कर्नल कमांडेंट के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 34350 लेफ्टिनेन्ट जनरल के जे सिंह, ए वी एस एम\*\* को 01 दिसम्बर 2014 (पूर्वाहन) से 54 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ दि रेजिमेन्ट के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 35915 लेफ्टिनेन्ट जनरल राजीव तिवारी को 01 जनवरी 2015 (पूर्वाहन) से 84 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ दि रेजिमेन्ट के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 34350 लेफ्टिनेन्ट जनरल के जे सिंह, ए वी एस एम\*\* को 20 जनवरी 2015 (पूर्वाहन) से 58 आर्मड रेजिमेन्ट के प्रथम कर्नल ऑफ दि रेजिमेन्ट के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 35965 लेफ्टिनेन्ट जनरल आर आर निम्भोरकर, ए वी एस एम, एस एम\*\*, वी एस एम को 01 मार्च 2015 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ पंजाब रेजिमेन्ट के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 34350 लेफ्टिनेन्ट जनरल के जे सिंह, ए वी एस एम\*\* को 01 मार्च 2015 (पूर्वाहन) से 41 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ दि रेजिमेन्ट के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 34890 लेफ्टिनेन्ट जनरल एस एल नर्शिम्हन, ए वी एस एम, वी एस एम को 01 नवम्बर 2014 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ मद्रास रेजिमेन्ट के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 35987 लेफ्टिनेन्ट जनरल डी आर सोनी, वी एस एम को 01 मार्च 2015 (पूर्वाहन) से सेंट्रल ईन्डिया होर्स के कर्नल ऑफ रेजिमेन्ट के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 35650 लेफ्टिनेन्ट जनरल बी सी मैथ्यूज, ए वी एस एम, वी एस एम को 01 मई 2015 (पूर्वाहन) से कुमाँउ और नागा रेजिमेन्ट तथा कुमाँउ स्काउट के कर्नल ऑफ रेजिमेन्ट के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष डी आर 10358 लेफ्टिनेन्ट जनरल टी के बन्दोपादध्याय को 30 मार्च 2015 (पूर्वाहन) से सेना दन्त चिकित्सा कोर के कर्नल कमांडेन्ट के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 35602 लेफ्टिनेन्ट जनरल ए वी सिवाने, वी एस एम को 01 अप्रैल 2015 (पूर्वाहन) से 73 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ दि रेजिमेन्ट के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 40293 मेजर जनरल ए एस क्लेर, वी एस एम को 01 मार्च 2015 (पूर्वाहन) से 74 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ दि रेजिमेन्ट के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 38097 मेजर जनरल अजय कुमार पंत को 01 फरवरी 2015 (पूर्वाहन) से 88 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ दि रेजिमेन्ट के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 39101 मेजर जनरल मनोज अरुण ओका को 01 फरवरी 2015 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ दि महार रेजिमेन्ट के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 40101 मेजर जनरल आर के जग्गा, वी एस एम को 01 मार्च 2015 (पूर्वाहन) से 55 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ दि रेजिमेन्ट के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 39458 मेजर जनरल ए पी डेरे को 01 फरवरी 2015 (पूर्वाहन) से 66 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ दि रेजिमेन्ट के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 38731 मेजर जनरल एस एस लाम्बा, एस एम को 06 जनवरी 2015 (पूर्वाहन) से सेना आयुद्ध कोर के कर्नल कमांडेन्ट के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 35929 मेजर जनरल विनोद वशिष्ट, वी एस एम को 01 जनवरी 2015 (पूर्वाहन) से तोपखाना रेजिमेन्ट के कर्नल कमांडेन्ट के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 39673 मेजर जनरल जे एस यादव, एस एम को 01 जनवरी 2015 (पूर्वाहन) से 43 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ दि रेजिमेन्ट के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 40293 मेजर जनरल ए एस क्लेर को 01 दिसम्बर 2014 (पूर्वाहन) से 68 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ दि रेजिमेन्ट के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 38097 मेजर जनरल अजय कुमार पंत को 01 दिसम्बर 2014 (पूर्वाहन) से 75 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ दि रेजिमेन्ट के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 40293 मेजर जनरल ए एस क्लेर को 01 दिसम्बर 2014 (पूर्वाहन) से 48 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ दि रेजिमेन्ट के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 39450 मेजर जनरल अमृत पाल सिंह को 01 दिसम्बर 2014 (पूर्वाहन) से 11 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ दि रेजिमेन्ट के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 38696 मेजर जनरल नरिन्दर पाल सिंह को 01 दिसम्बर 2014 (पूर्वाहन) से कर्नल ऑफ 07 कैवलरी के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 40679 ब्रिगेडियर ए के सनयाल को 30 अक्टूबर 2014 (पूर्वाहन) से 19 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ दि रेजिमेन्ट के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 40753 ब्रिगेडियर एम जे एस कहलॉन को 30 अक्टूबर 2014 (पूर्वाहन) से 67 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ दि रेजिमेन्ट के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 40722 ब्रिगेडियर कुलप्रीत सिंह को 25 नवम्बर 2014 (पूर्वाहन) से 10 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ दि रेजिमेन्ट के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 39915 ब्रिगेडियर अमरदीप भारद्वाज को 01 मार्च 2015 (पूर्वाहन) से 71 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ दि रेजिमेन्ट के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस सी खनसीली  
निदेशक/एम एस (एक्स)

थल सेना विभाग

सं. 182, दिनांक 8 जुलाई 2015—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं।

नियमित सेना

इन्फेन्ट्री

कुमाऊं रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के पद में

सूबेदार (आर टी)	लक्ष्मी दत्त भट्ट	जेसी-212469एम	01 मार्च 15
सूबेदार	बहादुर सिंह भण्डारी	जेसी-540444पी	01 मार्च 15
सूबेदार लिपिक	गुर्नाम सिंह	जेसी-540177वाई	01 अप्रैल 15
सूबेदार	सत्यवीर	जेसी-540279पी	01 अप्रैल 15

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार लिपिक	राज कुमार	न0 4184517एफ अब जेसी-541545पी	-	01 जनवरी 15
हवलदार लिपिक	शिंदर पाल	न0 4186095ए अब जेसी-541546एक्स	-	01 जनवरी 15
हवलदार लिपिक	जय प्रकाश	न0 4186228एल अब जेसी-541547ए	-	01 जनवरी 15
हवलदार	टिकेन्द्र सिंह	न0 4184852एल अब जेसी-541548एच	-	01 जनवरी 15
हवलदार	पुष्कर सिंह	न0 4184853एन अब जेसी-541549एल	-	02 जनवरी 15/01 जनवरी 15•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 15 से दी गई है।				
हवलदार	भीम चन्द राजन	न0 4184863एक्स अब जेसी-541550ए	-	01 जनवरी 15
हवलदार	प्रमोद कुमार जोशी	न0 4184893पी अब जेसी-541551एच	-	01 जनवरी 15
हवलदार	हर सिंह	न0 4184901एच अब जेसी-541552एल	-	01 जनवरी 15
हवलदार	महेन्द्र सिंह	न0 4184998वाई अब जेसी-541553एन	-	23 जनवरी 15/01 जनवरी 15•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 15 से दी गई है।				
हवलदार	सतीश कुमार	न0 4185933एक्स अब जेसी-541554डब्ल्यू	-	01 जनवरी 15
हवलदार	राजेन्द्र प्रसाद काण्डपाल	न0 4185400पी अब जेसी-541555वाई	-	01 जनवरी 15

हवलदार	प्रताप सिंह	न0 4184015वाई अब जेसी-541556एफ	-	01 जनवरी 15
हवलदार	जगत सिंह	न0 4185774एल अब जेसी-541557के	-	01 जनवरी 15
हवलदार	चामो सिंह	न0 4185775एन अब जेसी-541558एम	-	01 जनवरी 15
हवलदार	राजेन्द्र गिरी, सेना मैडल	न0 4184328एक्स अब जेसी-541559पी	-	02 जनवरी 15/01 जनवरी 15•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 15 से दी गई है।				
हवलदार	राजेन्द्र सिंह धामी	न0 4184330पी अब जेसी-541560के	-	01 जनवरी 15
हवलदार	प्रवीन सिंह	न0 4184489ए अब जेसी-541561एम	-	01 जनवरी 15
हवलदार	हरी किशन	न0 4186387एच अब जेसी-541562पी	-	23 जनवरी 15/01 जनवरी 15•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 15 से दी गई है।				
हवलदार लिपिक	मनमोहन सिंह कुमायन	न0 4184219एल अब जेसी-541563एक्स	-	27 जनवरी 15/22 जनवरी 15•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 22 जनवरी 15 से दी गई है।				
हवलदार लिपिक	मोहन सिंह	न0 4185966एच अब जेसी-541564ए	-	01 फरवरी 15
हवलदार लिपिक	सेगोकर सन्जु भाष्कर	न0 1486908एफ अब जेसी-541565एच	-	01 फरवरी 15
हवलदार	मदन सिंह	न0 4185494एक्स अब जेसी-541566एल	-	01 फरवरी 15
हवलदार	जगपाल सिंह राठौर	न0 4185420एच अब जेसी-541567एन	-	01 फरवरी 15
हवलदार	बच्ची सिंह	न0 4184690एल अब जेसी-541568डब्ल्यू	-	01 फरवरी 15
हवलदार	मोहन सिंह	न0 4184996एन अब जेसी-541569वाई	-	01 फरवरी 15
हवलदार	चेत राम यादव	न0 4185531ए अब जेसी-541570एन	-	08 अप्रैल 15/01 जनवरी 15•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 15 से दी गई है।				
हवलदार	गोविन्द सिंह	न0 4185163डब्ल्यू अब जेसी-541571डब्ल्यू	-	31 मार्च 15/15 फरवरी 15•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 15 फरवरी 15 से दी गई है।				
हवलदार लिपिक	हरिकेश कुमार	न0 4184011एच अब जेसी-541572वाई	-	01 मार्च 15
हवलदार लिपिक	नारायण दत्त गुरुरानी	न0 4184754एल अब जेसी-541573एफ	-	12 मार्च 15/01 मार्च 15•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मार्च 15 से दी गई है।				
हवलदार	देवेन्द्र कुमार	न0 4185200वाई अब जेसी-541574के	-	01 मार्च 15
हवलदार	किशन सिंह चौहान	न0 4185341एन अब जेसी-541575एम	-	01 मार्च 15
हवलदार	करन सिंह	न0 4186798एफ अब जेसी-541576पी	-	02 मार्च 15/01 मार्च 15•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मार्च 15 से दी गई है।				
हवलदार	देवेन्द्र सिंह कार्की	न0 4185003डब्ल्यू अब जेसी-541577एक्स	-	27 मार्च 15/03 मार्च 15•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 03 मार्च 15 से दी गई है।				
हवलदार	जगत सिंह धामी	न0 4184180के अब जेसी-541578ए	-	02 अप्रैल 15/19 मार्च 15•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 19 मार्च 15 से दी गई है।				

नागा रेजिमेन्ट				
हवलदार	कुन्दन सिंह	न0 14703080डब्ल्यू अब जेसी-590389ए	-	02 फरवरी 15/01 फरवरी 15•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 फरवरी 15 से दी गई है।				
हवलदार	कमल सिंह	न0 14702947डब्ल्यू अब जेसी-590390पी	-	02 फरवरी 15/01 फरवरी 15•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 फरवरी 15 से दी गई है।				
हवलदार	ई झूलो	न0 14703027एल अब जेसी- 590391एक्स	-	01 फरवरी 15
हवलदार	पी एस कनौथ अनल	न0 14702925एक्स अब जेसी-590392ए	-	01 फरवरी 15
हवलदार	सी एच बेनाचिंग मयौन	न0 14703028एन अब जेसी-590393एच	-	01 फरवरी 15
हवलदार	के थोरी	न0 14703112एन अब जेसी-590394एल	-	14 फरवरी 15/01 फरवरी 15•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 फरवरी 15 से दी गई है।				
हवलदार	मोहन सिंह	न0 14702919के अब जेसी-590395एन	-	01 मार्च 15
हवलदार	राजेन्द्र सिंह बिष्ट	न0 4185298एक्स अब जेसी-590396डब्ल्यू	-	05 अप्रैल 15/01 मार्च 15•
• नायब सूबेदार के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 मार्च 15 से दी गई है।				
हवलदार	एस यांगर	न0 14703013एल अब जेसी-590397वाई	-	20 मार्च 15

## सिख रेजिमेन्ट

## सूबेदार के रैंक में

सूबेदार सुखदेव सिंह	(जे सी 500337एल)	01 सितम्बर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014		
नायब सूबेदार कशमीर सिंह	(जे सी 500382एक्स)	20 अगस्त 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014		
नायब सूबेदार जसपाल सिंह	(जे सी 500478ए)	01 सितम्बर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014		
नायब सूबेदार हरपाल सिंह	(जे सी 500474के)	04 दिसम्बर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014		
नायब सूबेदार दरबार सिंह	(जे सी 500501एच)	22 अक्टूबर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014		
नायब सूबेदार जगजीत सिंह	(जे सी 500521डब्ल्यू)	19 दिसम्बर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014		
नायब सूबेदार जरनैल सिंह	(जे सी 500683एफ)	08 अक्टूबर 2014
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014		
नायब सूबेदार अवतार सिंह	(जे सी 500703के)	01 अक्टूबर 2014
नायब सूबेदार मोहन सिंह	(जे सी 500233के)	17 जनवरी 2015
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015		
नायब सूबेदार जरनैल सिंह	(जे सी 500301एम)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार अजीत सिंह	(जे सी 500324एन)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार जिन्दरपाल सिंह	(जे सी 500355एन)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार नथा सिंह	(जे सी 500356डब्ल्यू)	01 जनवरी 2015

नायब सूबेदार वीर सिंह	(जे सी 500365एक्स)	17 जनवरी 2015
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना	ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015	
सूबेदार बलविन्दर सिंह	(जे सी 500390डब्ल्यू)	12 जनवरी 2015
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना	ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015	
नायब सूबेदार परमिन्दर सिंह	(जे सी 500391वाई)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार कुलजीत सिंह	(जे सी 500438वाई)	24 जनवरी 2015
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना	ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015	
नायब सूबेदार भुपिन्दर सिंह	(जे सी 500450ए)	24 जनवरी 2015
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना	ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015	
नायब सूबेदार बलजिन्दर सिंह	(जे सी 500458एम)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार तारा सिंह	(जे सी 500645एल)	02 फरवरी 2015
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना	ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015	
नायब सूबेदार बावा सिंह	(जे सी 500646एन)	17 जनवरी 2015
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना	ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015	
सूबेदार गुरमेल सिंह	(जे सी 500642एक्स)	13 जनवरी 2015
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना	ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015	
नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह	(जे सी 500490एफ)	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार दिलबाग सिंह	(जे सी 500508एम)	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार दलजीत सिंह	(जे सी 500515एच)	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार हरदीप सिंह	(जे सी 500581एल)	01 फरवरी 2015
नायब सूबेदार जसबीर सिंह	(जे सी 500577एच)	02 फरवरी 2015
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना	ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015	
नायब सूबेदार जगतार सिंह	(जे सी 500599एफ)	02 फरवरी 2015
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना	ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015	
नायब सूबेदार गुरबख्श सिंह	(जे सी 500612ए)	02 फरवरी 2015
सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना	ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015	
सूबेदार आर टी के रैंक में		
नायब सूबेदार आर टी हरभजन सिंह	(जे सी 499267एच)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार आर टी कुलदीप सिंह	(जे सी 499433एल)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार आर टी सुरिन्दर सिंह	(जे सी 499434एन)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार के रैंक में		
हवलदार बलजीत सिंह	(3393124ए अब जे सी 500959एम)	01 सितम्बर 2014
हवलदार सिन्दरपाल सिंह	(3392874एम अब जे सी 500960एफ)	19 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना	ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014	
हवलदार मलजिन्दर सिंह	(3394074एम अब जे सी 500961के)	16 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना	ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014	
हवलदार सरबजीत सिंह	(33992701पी अब वजे सी 500962एम)	13 दिसम्बर 2014
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना	ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014	
हवलदार अवतार सिंह	(3392624एल अब जे सी 500963पी)	05 फरवरी 2015
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना	ज्येष्ठता 13 नवम्बर 2014	
हवलदार गुलजार सिंह	(3392892पी अब जे सी 500964एक्स)	20 जनवरी 2015
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना	ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015	

हवलदार राजबीर सिंह	(3394120डब्ल्यू अब जे सी 500965ए)	15 जनवरी 2015
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015		
हवलदार हरजीत सिंह	(3394482वाई अब जे सी 500966एच)	01 जनवरी 2015
हवलदार बलविन्दर सिंह	(3394547ए अब जे सी 500967एल)	01 जनवरी 2015
हवलदार गोबिन्दर सिंह	(3394674पी अब जे सी 500968एन)	01 जनवरी 2015
हवलदार बलविन्दर सिंह	(3394624के अब जे सी 500969डब्ल्यू)	01 जनवरी 2015
हवलदार कुलविन्दर सिंह	(3394816एफ अब जे सी 500970एल)	01 जनवरी 2015
हवलदार जगसीर सिंह	(3394998पी अब जे सी 500971एन)	01 जनवरी 2015
हवलदार जतिन्दर सिंह	(3394399ए अब जे सी 500972डब्ल्यू)	20 जनवरी 2015
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015		
हवलदार साहब सिंह	(3395961एल अब जे सी 500973वाई)	04 फरवरी 2015
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015		
हवलदार दलजीत सिंह	(3406093एम अब जे सी 500974एफ)	01 जनवरी 2015
हवलदार सुखवीर सिंह	(3395135एल अब जे सी 500975के)	01 जनवरी 2015
हवलदार रणजीत सिंह	(3394827एन अब जे सी 500976एम)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015		
हवलदार रणजोध सिंह	(3397251एम अब जे सी 500977पी)	31 जनवरी 2015
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015		
हवलदार जसबीर सिंह कुन्नर सिंह	(3395557डब्ल्यू अब जे सी 500978एक्स)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015		
हवलदार गुरमीत सिंह	(3397616डब्ल्यू अब जे सी 500979ए)	31 जनवरी 2015
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015		
हवलदार परमिन्दरजीत सिंह	(3397707ए अब जे सी 500980पी)	31 जनवरी 2015
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015		
हवलदार हरशरन सिंह	(3396108एन अब जे सी 500981एक्स)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015		
हवलदार कंवलजीत सिंह	(3392883एन अब जे सी 500982ए)	02 फरवरी 2015
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015		
हवलदार हरपाल सिंह	(3401861वाई अब जे सी 500983एच)	01 फरवरी 2015
हवलदार कशमीर सिंह	(3393223एच अब जे सी 500984एल)	01 फरवरी 2015
हवलदार सुरजीत सिंह	(3393229के अब जे सी 500985एन)	01 फरवरी 2015
हवलदार जसबीर सिंह	(3396223एन अब जे सी 500986डब्ल्यू)	02 फरवरी 2015
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015		
हवलदार सुखजीत सिंह	(3396256वाई अब जे सी 500987 वाई)	02 फरवरी 2015
नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015		

## मद्रास रेजीमेंट

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार पी जयाप्रकाशम	(2598829के अब जेसी 441101डब्ल्यू)	27 सितम्बर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार एस सुरेश	(2599305पी अब जेसी 441102वाई)	27 सितम्बर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार के कार्तिकेयन	(2599336पी अब जेसी 441103एफ)	04 अक्टूबर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार सीदप्पा मुगाली	(2596247एल अब जेसी 441104के)	27 अक्टूबर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जुलाई 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार सतीश कुमार बोलाडा	(2598764 एफ अब जेसी 441105एम)	18 अक्टूबर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जुलाई 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार डोवा बीरा शेखरा राव	(2598869एल अब जेसी 441106पी)	14 अक्टूबर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जुलाई 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार वीनू एम पी	(2598908वाई अब जेसी 441107एक्स)	12 सितम्बर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जुलाई 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार एडवीन एच	(2599126पी अब जेसी 441108ए )	10 नवम्बर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जुलाई 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार बालाजी ए एम	(2606567डब्ल्यू अब जेसी 441109एच)	29 अगस्त 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 जुलाई 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार लिपिक सुरेशन इ वी	(2598126एच अब जेसी 441110एक्स)	02 अगस्त 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार लिपिक ठाकुर अखिलेश्वर सिंह परमार	(2598177डब्ल्यू अब जेसी 441111ए )	04 अगस्त 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार सुरेन्द्र पोनाडा	(2597661डब्ल्यू अब जेसी 441112एच)	01 अगस्त 2014
हवलदार राधाकृष्णन् एन	(2596843एक्स जेसी 441113एल)	01 अगस्त 2014
हवलदार डन्डापानी वी	(2598385एल अब जेसी 441114एन)	02 अगस्त 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार शबस्तीन डेनियल	(2599362डब्ल्यू अब जेसी 441115डब्ल्यू)	05 अगस्त 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार सम्पत बी के	(2597985एफ अब जेसी 441116वाई)	01 सितम्बर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 अगस्त 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार टी वेन्केटसलू	(2595510वाई अब जेसी 441118के)	03 अक्टूबर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अगस्त 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार साथी कुमार आर	(2596545एफ अब जेसी 441119एम)	10 अक्टूबर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अगस्त 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार कपेटा नागेश्वर रेड्डी	(2596662एम अब जेसी 441120एफ)	04 अक्टूबर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अगस्त 2014 से दी जायेगी)		



हवलदार शिवादास एम बी	(2596891एक्स अब जेसी 441121के)	06 अक्टूबर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अगस्त 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार सनल कुमार टी आर	(2597166एक्स अब जेसी 441122एम)	01 अक्टूबर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अगस्त 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार प्रमोद पी पी	(2597996एन अब जेसी 441123पी)	18 सितम्बर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार वेंकटा रमना बानत्रोथु	(2597998वाई अब जेसी 441124एक्स)	01 सितम्बर 2014
हवलदार प्रदीप के जी	(3394468एल अब जेसी 441125ए )	01 सितम्बर 2014
हवलदार शशीकान्त मानस	(2596171डब्ल्यू अब जेसी 441126एच)	10 सितम्बर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार सुरेश आर	(13621413पी अब जेसी 441127एल)	29 सितम्बर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार अनिल कुमार एम	(2597012एल अब जेसी 441128एन)	13 सितम्बर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार राजीव आर	(2598545ए अब जेसी 441129डब्ल्यू)	25 सितम्बर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार सदानन्द बी के	(2598478ए अब जेसी 441130एल)	02 सितम्बर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार श्रीनीवासा राव सीनगुपुरागु	(2598652एफ अब जेसी 441131एन)	01 सितम्बर 2014
हवलदार हेल्थ मारक्स ए	(2598994पी जेसी 441132डब्ल्यू)	15 सितम्बर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार उन्नीकृष्णन् पी	(2598465एच अब जेसी 441133वाई)	01 अक्टूबर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 सितम्बर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार सजीव के वी	(2598786ए अब जेसी 441134वाई)	07 अक्टूबर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 सितम्बर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार वी वेन्कटेश्वरलु	(2597311के अब जेसी 441135के)	30 सितम्बर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 सितम्बर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार ए के मोहन सुन्दरम	(2594739एल अब जेसी 441136एम)	04 नवम्बर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार वारकला बालानारयणा	(2595489एफ अब जेसी 441137पी)	04 नवम्बर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार शीजु पी	(2598002एन अब जेसी 441138एक्स)	05 नवम्बर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 सितम्बर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार लिपिक प्रमोद कुमार	(2598210एच अब जेसी 441139ए )	03 नवम्बर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार डी कन्नन	(2598278के अब जेसी 441140पी)	01 अक्टूबर 2014
हवलदार लिपिक बलदेव सिंह	(2598322एच अब जेसी 441141एक्स)	01 अक्टूबर 2014
हवलदार लिपिक सुभयंकर राय	(2598348एक्स अब जेसी 441142ए )	01 नवम्बर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी)		

हवलदार(लिपिक) नेमजी काथात	(2598635एफ अब जेसी 441143एच)	31 अक्टूबर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार लिपिक रमेश के	(2598683एफ अब जेसी 441144एल)	15 अक्टूबर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार लिपिक अरविन्द कुमार	(2598684के अब जेसी 441145एन)	01 अक्टूबर 2014
हवलदार लिपिक पी टी बीनीश	(2598714डब्ल्यू अब जेसी 441146डब्ल्यू)	10 नवम्बर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार ऐलफर्ड आर	(2601645वाई अब जेसी 441147वाई)	03 नवम्बर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार शीवा प्रसाद ऐनुमुला	(2598762डब्ल्यू अब जेसी 441148एफ)	27 दिसंबर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार मजारी नागेश्वरा राव	(2595829वाई अब जेसी 441149के)	19 नवम्बर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 सितम्बर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार राधा एस	(2597349एन अब जेसी 441150वाई)	15 नवम्बर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार शाजी शीमन	(2597920एन अब जेसी 441151एफ)	24 नवम्बर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार पी गणेशन	(2597701एम अब जेसी 441152के)	20 दिसंबर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार लिपिक एण्टोनी प्रिंस ओ जे	(2598716एफ अब जेसी 441153एम)	01 दिसंबर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार एम श्रीनिवासलु	(2596536ए अब जेसी 441154पी)	21 नवम्बर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार के मालेशाम	(2596592वाई अब जेसी 441155एक्स)	15 नवम्बर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार अशोक तलवार	(2596633एक्स अब जेसी 441156ए)	15 नवम्बर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार साथीयम एम	(2597351एल अब जेसी 441157एच)	19 नवम्बर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार मधुशुदन रेड्डी	(2598098एफ अब जेसी 441158एल)	05 नवम्बर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार अरोक्या राजीव	(2616889के अब जेसी 441160एच)	23 दिसंबर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार सतीश कुमार सी एस	(2597139एन अब जेसी 441161एल)	19 दिसंबर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार गुनालन एस	(2597206एन अब जेसी 441162एन)	23 दिसंबर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 अक्टूबर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार रामदास एन	(2595105एफ अब जेसी 441163डब्ल्यू)	19 जनवरी 2015*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)		

हवलदार शेख रहमातुल्ला	(2596487एच अब जेसी 441164वाई)	01 जनवरी 2015*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार शीनेश के पी	(2597729एम अब जेसी 441165एफ)	16 दिसंबर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार दशरथ राव एम	(2598959एम अब जेसी 441166के)	23 दिसंबर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार सुभाष के वी	(2597238डब्ल्यू अब जेसी 441167एम)	19 दिसंबर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार सोमालिन्ना रोटी	(2595854एक्स अब जेसी 441168पी)	24 जनवरी 2015*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार(लिपिक) अशगर अली	(2598769ए अब जेसी 441169एक्स)	01 दिसंबर 2014
हवलदार(लिपिक) रामायण सिंह यादव	(2598774एल अब जेसी 441170एम)	16 दिसंबर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसंबर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार जी मुरगन	(2597049एम अब जेसी 441171पी)	11 दिसंबर 2014*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसंबर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार लक्ष्मीनारायनल बुक्ता	(2597251ए अब जेसी 441172एक्स)	08 जनवरी 2015*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसंबर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार(मुजिशियन) के उमा कुमार	(2596656वाई अब जेसी 441173ए)	01 दिसंबर 2014
हवलदार लक्ष्मन डी पी	(2597256वाई अब जेसी 441174एच)	07 मार्च 2015*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसंबर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार डी इलवारशन	(2599232एन अब जेसी 441175एल)	17 फरवरी 2015*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 दिसंबर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार इशाकी मुथु ए	(2598748के अब जेसी 441176एन)	17 फरवरी 2015*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 दिसंबर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार(लिपिक) मुशाल दत्तातरे अर्जुना	(2598817पी अब जेसी 441177डब्ल्यू)	01 जनवरी 2015
हवलदार(लिपिक) नाबा कुमार विश्वास	(2598854एच अब जेसी 441178वाई)	01 जनवरी 2015
हवलदारएस अलगुमलई	(2597511ए अब जेसी 441179एफ)	20 जनवरी 2015*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जायेगी)		
हवलदार श्रीनीवासा मूर्ती पी के	(2599002ए अब जेसी 441180डब्ल्यू)	01 जनवरी 2015
हवलदार टी दमोदरन	(2597840डब्ल्यू अब जेसी 441181वाई)	09 फरवरी 2015*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जायेगी)		
हवलदार मुरगेशन डी	(2599255पी अब जेसी 441182एफ)	16 फरवरी 2015*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 जनवरी 2015 से दी जायेगी)		
हवलदार ए श्रीनीवास रेड्डी	(2598203एम अब जेसी 441183के)	09 फरवरी 2015*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 जनवरी 2015 से दी जायेगी)		
हवलदार मुटाइया के ए	(2597531एन अब जेसी 441184एम)	18 फरवरी 2015*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 नवम्बर 2014 से दी जायेगी)		
हवलदार नागेश्वर राव पगडेला	(2598426के अब जेसी 441185पी)	28 फरवरी 2015*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जनवरी 2015 से दी जायेगी)		

हवलदार यशवंत कुमार वी के	(2598157एच अब जेसी 441186एक्स)	21 मार्च 2015*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 जनवरी 2015 से दी जायेगी)		
हवलदार(लिपिक) हाफीज अली	(2598265एम अब जेसी 441187ए)	01 फरवरी 2015
हवलदार(लिपिक) सन्नी पी वी	(2598866एक्स अब जेसी 441188एच)	01 फरवरी 2015
हवलदार(लिपिक) अजीत सी वर्गीस	(2598937एन अब जेसी 441189एल)	02 फरवरी 2015*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जायेगी)		
हवलदार(लिपिक) श्री देवेन्द्र सिंह बघेल	(2599013एम अब जेसी 441190ए)	01 फरवरी 2015
हवलदार(लिपिक) महेन्द्र सिंह	(2599033ए अब जेसी 441191एच)	02 फरवरी 2015*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जायेगी)		
हवलदार(लिपिक) नगेन्द्र कुमार प्रभाकर	(2599037डब्ल्यू अब जेसी 441192एल)	01 फरवरी 2015
हवलदार(लिपिक) मीरीनल कान्ती सोम	(2598670के अब जेसी 441193एन)	01 फरवरी 2015
हवलदार(लिपिक) प्रकाश सिंह	(2599151एन अब जेसी 441194डब्ल्यू)	02 फरवरी 2015*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जायेगी)		
हवलदार(लिपिक) मोहन सिंह	(2599152डब्ल्यू अब जेसी 441195वाई)	02 फरवरी 2015*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जायेगी)		
हवलदार(लिपिक) सालुन्के शिवाजी मल्लु	(2599167वाई अब जेसी 441196एफ)	01 फरवरी 2015
हवलदार कृष्णन् टी	(2597921डब्ल्यू अब जेसी 441197के)	20 फरवरी 2015*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जायेगी)		
हवलदार लोगनाथन एस, एस एम	(2598370एच अब जेसी 441198एम)	20 फरवरी 2015*
(*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जायेगी)		
हवलदार हशनार ए	(2597406के अब जेसी 441199पी)	01 फरवरी 2015
हवलदार जे थिरुमल्ला	(2598361एफ अब जेसी 441200वाई)	01 फरवरी 2015
पैराशूट रेजिमेंट		
नायब सूबेदार के रैंक में		
हवलदार मोहन सिंह	(नं 4187085एच अब जेसी-413883एफ)	01 जून 2014
हवलदार भूपाल सिंह	(नं 4187122एच अब जेसी-413894 एन)	08 जून 2014
हवलदार तिलक राज	(नं 13620655एल अब जेसी-413901वाई)	22 जून 2014
हवलदार शशि पाल	(नं 13758631ए अब जेसी-413902एफ)	01 जुलाई 2014
हवलदार भूदेव सिंह नरवार	(नं 3188231एन अब जेसी-413913एन)	17 अगस्त 2014
हवलदार सतीश कुमार, एस एम	(नं 3994499एच अब जेसी-413914डब्ल्यू)	01 सितम्बर 2014
हवलदार पुश्कर सिंह चुपाल	(नं 4188191एन अब जेसी-413928डब्ल्यू)	01 सितम्बर 2014
हवलदार रोमेश चन्द्र	(नं 3994760एक्स अब जेसी-413929वाई)	28 सितम्बर 2014
हवलदार सुभाश चन्द्र	(नं 3994820एफ अब जेसी-413940एक्स)	01 अक्टूबर 2014
हवलदार सर्जीव कुमार	(नं 14922189पी अब जेसी-413941ए)	01 अक्टूबर 2014
हवलदार नोन्मैथम सुरजीत सिंह	(नं 4364048एम अब जेसी-413942एच)	01 अक्टूबर 2014
हवलदार मोहम्मद रकीव, एस एम	(नं 9097292एच अब जेसी-413980वाई)	01 अक्टूबर 2014
हवलदार जैयशी राम	(नं 3995537ए अब जेसी-413949एम)	01 अक्टूबर 2014
हवलदार अजय कुमार	(नं 1492343एक्स अब जेसी-413952एम)	01 नवम्बर 2014
हवलदार रुमाले शिवाजी हरी	(नं 14416990के अब जेसी-413966एम)	01 नवम्बर 2014
हवलदार राजन, एस सी	(नं 13621161एन अब जेसी-413953पी)	01 नवम्बर 2014

हवलदार गामे सुरेश बापु	(नं 2793321ए अब जेसी-413967पी)	01 नवम्बर 2014
हवलदार बीरबल सिंह	(नं 13621218एक्स अब जेसी-413950एफ)	01 नवम्बर 2014
हवलदार अरुण कुमार	(नं 13621337एन अब जेसी-413951के)	01 दिसम्बर 2014
हवलदार विलाश कालेकर	(नं 13619798वाई अब जेसी-413807पी)	01 नवम्बर 2013
हवलदार मनोज कुमार एस	(नं 13621157एल अब जेसी-413808 एक्स)	01 जनवरी 2014
हवलदार रमेश कुमार	(नं 13621387वाई अब जेसी-413809ए)	01 जनवरी 2014
हवलदार गुरव नन्द किशोर पानडूरग	(नं 13621390वाई अब जेसी-413815एन)	01 जनवरी 2014
हवलदार महेश मंडाला गेरी	(नं 13621431एक्स अब जेसी-413819के)	04 फरवरी 2014
हवलदार गुलाब सिंह	(नं 3996632वाई अब जेसी-413861एच)	01 अप्रैल 2014
हवलदार सुरेन्द्र कुमार	(नं 2690059एच अब जेसी-413851वाई)	01 अप्रैल 2014
हवलदार के गणेशन	(नं 13621547एन अब जेसी-413864डब्ल्यू)	01 मई 2014
हवलदार पवन सिंह	(नं 2489023एन अब जेसी-413850डब्ल्यू)	01 मई 2014
हवलदार फूलचन्द कुमार यादव	(नं 15131320एक्स अब जेसी-413881डब्ल्यू)	07 मई 2014
हवलदार पीयाशपाल सिंह	(नं 2690558एक्स अब जेसी-413909एल)	01 जून 2014
हवलदार पंकज कुमार सिंह	(नं 13697685एक्स अब जेसी-413907ए)	01 जून 2014
हवलदार दीपक कुमार थापा	(नं 5248701एन अब जेसी-413880एन)	01 जुलाई 2014
हवलदार कदम राजा राम बाबू	(नं 13621874वाई अब जेसी-413921एम)	01 सितम्बर 2014
हवलदार विनोद सिंह	(नं 4078741एच अब जेसी-413933एफ)	01 सितम्बर 2014
हवलदार ललित प्रशाद जोशी	(नं 13618947पी अब जेसी-413824पी)	12 जनवरी 2014
हवलदार इन्द्रा सिंह	(नं 13619383के अब जेसी-413835एफ)	01 अप्रैल 2014
हवलदार प्रहलाद आचार्य	(नं 13619434एम अब जेसी-413836के)	01 अप्रैल 2014
हवलदार नवीन शाह	(नं 13619584एच अब जेसी-413837एम)	01 अप्रैल 2014
हवलदार हरीश सिंह बिष्ट	(नं 13619586एन अब जेसी-413846एन)	01 अप्रैल 2014
हवलदार भुवन चन्द्रा आर्य	(नं 13619640डब्ल्यू अब जेसी-413863एन)	01 अप्रैल 2014
हवलदार देवेन्द्रा कुमार कल्पासी	(नं 13619713एक्स अब जेसी-413857ए)	01 अप्रैल 2014
हवलदार मोहन सिंह	(नं 13619755के अब जेसी-413858एच)	01 अप्रैल 2014
हवलदार राजेन्द्रा सिंह	(नं 13619768एफ अब जेसी-413859एल)	01 मई 2014
हवलदार रमेश सिंह	(नं 13619786के अब जेसी-413860ए)	01 मई 2014
हवलदार भुपाल सिंह जर्माल	(नं 13619787एम अब जेसी-413875एच)	30 मई 2014
हवलदार चंचल सिंह पावार	(नं 13620008एल अब जेसी-413982के)	01 अक्टूबर 2014
हवलदार बिरेन्द्रा सिंह	(नं 13619893एल अब जेसी-413985एक्स)	01 नवम्बर 2014
हवलदार रंजोध सिंह	(नं 13620636ए अब जेसी-413840एम)	01 फरवरी 2014
हवलदार दवीन्द्र सिंह	(नं 13621105पी अब जेसी-413854एम)	21 मार्च 2014
हवलदार ईशवरी प्रशाद कुंवर	(नं 13621775डब्ल्यू अब जेसी-413856एक्स)	01 अप्रैल 2014
हवलदार राजेन्द्र कुमार	(नं 13621784वाई अब जेसी-413908एच)	01 अप्रैल 2014
हवलदार संजय सिंह	(नं 13621513ए अब जेसी-413855पी)	01 अप्रैल 2014
हवलदार अश्वनि कुमार	(नं 13621774एन अब जेसी-413882वाई)	01 मई 2014
हवलदार विजय सिंह	(नं 13621880ए अब जेसी-413918एम)	28 जून 2014
हवलदार उज्जल सरकार	(नं 13622092पी अब जेसी-413924ए)	01 सितम्बर 2014
हवलदार अशोक कुमार	(नं 13622267एम अब जेसी-413919पी)	01 सितम्बर 2014
हवलदार शाजी वी	(नं 13622275एल अब जेसी-413922पी)	01 अक्टूबर 2014

हवलदार मनोज बिष्ट	(नं 13622349पी अब जेसी-413923एक्स)	01 अक्टूबर 2014
हवलदार शिव सिंह	(नं 13619277एल अब जेसी-413806एल)	01 नवम्बर 2013
हवलदार अजने संजीव राम राओ	(नं 13618665डब्ल्यू अब जेसी-413832एन)	01 फरवरी 2014
हवलदार दिबेन्द्रा सिंह	(नं 13619029पी अब जेसी-413833डब्ल्यू)	01 फरवरी 2014
हवलदार संजय कुमार अधिकारी	(नं 13619035एच अब जेसी-413834वाई)	01 फरवरी 2014
हवलदार धनी चन्द	(नं 13619293एच अब जेसी-413895डब्ल्यू)	01 जून 2014
हवलदार महेन्द्र सिंह	(नं 13619333वाई अब जेसी-413896वाई)	01 जून 2014
हवलदार नारायण सिंह थयात	(नं 13619356ए अब जेसी-413897एफ)	05 जून 2014
हवलदार हन्स राज	(नं 13619429एफ अब जेसी-413898के)	05 जून 2014
हवलदार शिव कुमार सिंह	(नं 13619662पी अब जेसी-413899एम)	05 जून 2014
हवलदार सुनील कुमार	(नं 13619687एफ अब जेसी-413915एफ)	01 सितम्बर 2014
हवलदार गजेन्द्र सिंह	(नं 13619760पी अब जेसी-413937एक्स)	01 नवम्बर 2014
हवलदार प्रमोद कुमार यादव	(नं 13619785एफ अब जेसी-413973एच)	01 दिसम्बर 2014
हवलदार राम लक्षण सिंह यादव	(नं 13619944एन अब जेसी-413971एक्स)	01 दिसम्बर 2014
हवलदार महेश सिंह	(नं 13620007एच अब जेसी-413972ए)	01 दिसम्बर 2014
हवलदार गुरसत सिंह	(नं 13619919पी अब जेसी-413810पी)	01 जनवरी 2014
हवलदार राजेश कुमार	(नं 13620011एल अब जेसी-413838पी)	01 अप्रैल 2014
हवलदार नरेश सिंह	(नं 13620031एल अब जेसी-413849एफ)	01 मई 2014
हवलदार प्रेम सिंह	(नं 13620034एम अब जेसी-413853के)	10 मई 2014
हवलदार अमरजीत सिंह	(नं 13620086एच अब जेसी-413876एल)	10 मई 2014
हवलदार मेजर सिंह सन्धू	(नं 13620087एल अब जेसी-413884के)	01 जून 2014
हवलदार भंवर सिंह शेखावत	(नं 13619681ए अब जेसी-413891ए)	14 जून 2014
हवलदार रंजीत सिंह	(नं 13619795एल अब जेसी-413892एच)	14 जून 2014
हवलदार मनोज कुमार	(नं 13619808एक्स अब जेसी-413903के)	19 जून 2014
हवलदार रणबीर सिंह राणा	(नं 13619869पी अब जेसी-413893एल)	19 जून 2014
हवलदार गुरमीत सिंह	(नं 13619871एम अब जेसी-413934के)	22 जून 2014
हवलदार शिव मंगल सिंह सेंगर	(नं 13620028एल अब जेसी-413988एल)	01 सितम्बर 2014
हवलदार बलजिन्द्र सिंह	(नं 13619917के अब जेसी-413996के)	01 अक्टूबर 2014
हवलदार जगशीर सिंह	(नं 13620138एन अब जेसी-413814एल)	01 जनवरी 2014
हवलदार रामवीर सिंह	(नं 13620054ए अब जेसी-413839एक्स)	01 अप्रैल 2014
हवलदार छित्तर माल जाट	(नं 13620294एक्स अब जेसी-413845एल)	01 अप्रैल 2014
हवलदार साबेन्द्र सिंह चौहान	(नं 13620421एफ अब जेसी-413847डब्ल्यू)	01 मई 2014
हवलदार प्रकाश चन्द्रा नायक	(नं 13620502एफ अब जेसी-413866एफ)	07 मई 2014
हवलदार सुखवीर सिंह	(नं 13620559डब्ल्यू अब जेसी-413869पी)	07 मई 2014
हवलदार अजया कुमार बेहरा	(नं 13620646के अब जेसी-413867के)	07 मई 2014
हवलदार पन्छु गोपाल राय, एस सी	(नं 13619947एफ अब जेसी-413878डब्ल्यू)	01 जून 2014
हवलदार धर्म पाल सिंह	(नं 13621657एच अब जेसी-413879वाई)	01 जून 2014
हवलदार कुलदीप सिंह	(नं 13620746पी अब जेसी-413917के)	01 जून 2014
हवलदार अडगा प्रेमनान्दा पात्रा	(नं 13620111डब्ल्यू अब जेसी-413931डब्ल्यू)	01 जून 2014
हवलदार संजीव कुमार	(नं 13620896एल अब जेसी-413932वाई)	12 जून 2014
हवलदार हरमेश कुमार	(नं 13620997वाई अब जेसी-413930एन)	12 जून 2014
हवलदार खिन्नव सिंह भाटी	(नं 13620572पी अब जेसी-413943एल)	25 जून 2014
हवलदार झर्नेल सिंह	(नं 13621285एह अब जेसी-414001एफ )	14 अगस्त 2014

हवलदार सतीश चन्द (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014)	(नं 13621458पी अब जेसी-413997एम)	28 फरवरी 2015
हवलदार महेन्द्र सिंह	(नं 13621466एन अब जेसी-413955ए)	01 अक्टूबर 2014
हवलदार विजय सिंह	(नं 13621491एम अब जेसी-413991एल)	01 नवम्बर 2014
हवलदार नन्दा लाल पौल	(नं 13620932एल अब जेसी-413968एक्स)	01 नवम्बर 2014
हवलदार हनुमान प्रशाद	(नं 13621473के अब जेसी-413944एन)	01 नवम्बर 2014
हवलदार राजीब कुमार	(नं 13621530ए अब जेसी-413969ए)	01 नवम्बर 2014
हवलदार सुरेश कुमार	(नं 13620887के अब जेसी-413816डब्ल्यू)	29 दिसम्बर 2013
हवलदार इन्द्रपाल सिंह	(नं 13620926के अब जेसी-413817वाई)	29 दिसम्बर 2013
हवलदार संजय कुमार	(नं 13620990पी अब जेसी-413818एफ)	29 दिसम्बर 2013
हवलदार नवान्ग तमान्ग, एसएम	(नं 9422624एन अब जेसी-413844एच)	09 मार्च 2014
हवलदार पदम सुब्बा	(नं 9422707वाई अब जेसी-413848वाई)	01 अप्रैल 2014
हवलदार राजेश मिनहाश	(नं 3996331पी अब जेसी-413904एम)	02 अप्रैल 2014
हवलदार सुरजीत सिंह	(नं 13621423वाई अब जेसी-413905पी)	02 अप्रैल 2014
हवलदार महेन्द्र सिंह	(नं 13621428एक्स अब जेसी-413906एक्स)	03 अप्रैल 2014
हवलदार प्रमोद	(नं 13621507एम अब जेसी-413912एल)	16 अप्रैल 2014
हवलदार पुरन सिंह	(नं 13760851एच अब जेसी-413900डब्ल्यू)	08 जून 2014
हवलदार राजिव कुमार	(नं 13621683के अब जेसी-413938ए)	01 नवम्बर 2014
हवलदार हरदेव सिंह, एस एम	(नं 13621708एल अब जेसी-413939एच)	01 नवम्बर 2014
हवलदार सतवीर सिंह	(नं 2483672एच अब जेसी-413795एल)	01 अक्टूबर 2013
हवलदार रघुबीर सिंह	(नं 4073587एल अब जेसी-413797एन)	01 अक्टूबर 2013
हवलदार गम्बर सिंह, एस एम	(नं 4073603एक्स अब जेसी-413842एक्स)	01 अप्रैल 2014
हवलदार देवेन्द्रा सिंह	(नं 4073612वाई अब जेसी-413843ए)	01 अप्रैल 2014
हवलदार ए दुरै	(नं 15310933एन अब जेसी-413841पी)	01 अप्रैल 2014
हवलदार त्रिभवन सिंह, एस सी	(नं 4184821एल अब जेसी-413852एफ)	04 मई 2014
हवलदार हीरा सिंह पटवाल	(नं 13619057एफ अब जेसी-413887एक्स)	01 जून 2014
हवलदार दिनेश सिंह	(नं 4073576वाई अब जेसी-413981एफ)	01 नवम्बर 2014
हवलदार बहादुर सिंह	(नं 4185075ए अब जेसी-413992एन)	01 दिसम्बर 2014
हवलदार भागु राम	(नं 13619339ए अब जेसी-413977वाई)	01 दिसम्बर 2014
हवलदार देवेन्द्र सिंह भाईसोरा	(नं 4185352ए अब जेसी-413978एफ)	01 दिसम्बर 2014
हवलदार पाटिल भरत जयसिंह	(नं 2789445एक्स अब जेसी-413812ए)	01 नवम्बर 2013
हवलदार मोरे चन्द्राकान्त दतात्रे	(नं 2789696एफ अब जेसी-413811एक्स)	06 दिसम्बर 2013
हवलदार राजेश कुमार	(नं 2789867एच अब जेसी-413820वाई)	01 जनवरी 2014
हवलदार शिन्दे सतिश चन्द्राकान्त	(नं 2789922एन अब जेसी-413828एल)	01 मार्च 2014
हवलदार गणेश कुमार	(नं 2790019डब्ल्यू अब जेसी-413983एम)	01 अप्रैल 2014
हवलदार सुभाश चन्द	(नं 2790040वाई अब जेसी-413871एम)	01 अप्रैल 2014
हवलदार उदा राम	(नं 2790109एक्स अब जेसी-413872पी)	01 अप्रैल 2014
हवलदार राजेश कुमार	(नं 2790177एल अब जेसी-413870के)	23 अप्रैल 2014
हवलदार जशविन्दर सिंह	(नं 2790181एन अब जेसी-413910ए)	01 सितम्बर 2014
हवलदार जगदीश प्रसाद	(नं 13618978पी अब जेसी-413821पी)	13 सितम्बर 2013
हवलदार प्रकाश राय	(नं 13618912वाई अब जेसी-413874ए)	25 सितम्बर 2013
हवलदार हरिश चन्द्र भट	(नं 13619582एक्स अब जेसी-413822के)	25 सितम्बर 2013

हवलदार राजेन्द्र पाल सिंह सेन्गर	(नं 13620043एन अब जेसी-413823एम)	01 दिसम्बर 2013
हवलदार राकेश कुमार	(नं 13619946वाई अब जेसी-413825एक्स)	19 जनवरी 2014
हवलदार सुरेश कुमार	(नं 13759754वाई अब जेसी-413826ए)	04 फरवरी 2014
हवलदार विक्रम सिंह राय	(नं 9422486एक्स अब जेसी-413827एच)	08 फरवरी 2014
हवलदार प्रवेश कुमार गुर्जर	(नं 13621114डब्ल्यू अब जेसी-413862एल)	26 अप्रैल 2014
हवलदार राणा प्रेम कुमार सिंह	(नं 13619723एफ अब जेसी-413865वाई)	01 मई 2014
हवलदार माने लक्ष्मण महादेव	(नं 4564852एक्स अब जेसी-413888ए)	21 अप्रैल 2014
हवलदार विक्रम सिंह राजपुत	(नं 13620348एन अब जेसी-413889एन)	01 जून 2014
हवलदार बलबीर सिंह	(नं 13622013पी अब जेसी-413890एक्स)	03 जून 2014
हवलदार शिवराज जाट	(नं 13620581एफ अब जेसी-413916एफ)	01 सितम्बर 2014
हवलदार तेग बाहादुर	(नं 13619018एच अब जेसी-413935एम)	01 अक्टूबर 2014
हवलदार लक्ष्मी चरण पानीग्राही	(नं 13619476वाई अब जेसी-413936पी)	22 अक्टूबर 2014
हवलदार कन्कारा मल्लेश्वर रेडडी	(नं 2597807वाई अब जेसी-413868एम)	06 अप्रैल 2014
हवलदार रूप सिंह राजपुत	(नं 13619492डब्ल्यू अब जेसी-413877एन)	01 जून 2014
हवलदार बशिन्द्र कन्हार	(नं 13621707एच अब जेसी-413959डब्ल्यू)	14 दिसम्बर 2014
हवलदार धर्म सिंह	(नं 2992954एल अब जेसी-413974एल)	14 दिसम्बर 2014
हवलदार केबल सिंह	(नं 13620688डब्ल्यू अब जेसी-413975एन)	14 दिसम्बर 2014
हवलदार राम कुमार रानोटे	(नं 13620803एल अब जेसी-413960एल)	14 दिसम्बर 2014
हवलदार बलवत सिंह	(नं 3994736एफ अब जेसी-413961एन)	14 दिसम्बर 2014
हवलदार नारेन्द्र सिंह	(नं 13621422डब्ल्यू अब जेसी-413962डब्ल्यू)	14 दिसम्बर 2014
हवलदार मोरे सायाजी उत्तम	(नं 2791396डब्ल्यू अब जेसी-413976डब्ल्यू)	14 दिसम्बर 2014
हवलदार राउत मछिद्रा वीट्टल	(नं 2791469ए अब जेसी-413963वाई)	14 दिसम्बर 2014
हवलदार रमेश कुमार	(नं 13760408पी अब जेसी-413964एफ)	14 दिसम्बर 2014
हवलदार जुज सिंह	(नं 13621701एफ अब जेसी-413965के)	14 दिसम्बर 2014
हवलदार(लिपिक) श्री कुमार सिंह	(नं 2790930वाई अब जेसी-413785एफ)	01 सितम्बर 2014
हवलदार(लिपिक) ए अप्पाला राजु	(नं 13620424पी अब जेसी-413786के)	01 सितम्बर 2014
हवलदार(लिपिक) नरेश कुमार	(नं 13620466एफ अब जेसी-413787एम)	05 सितम्बर 2014
हवलदार(लिपिक) अरविन्द सिंह चौहान	(नं 1486543 एक्स अब जेसी-413799एफ)	01 जनवरी 2014
हवलदार(लिपिक) इनामदार रियाज अहमद लतिब	(नं 13620474ए अब जेसी-413813एच)	01 फरवरी 2014
हवलदार(लिपिक) विक्रम सिंह	(नं 13620516एफ अब जेसी-413831एल)	01 अप्रैल 2014
हवलदार(लिपिक) सुमेर सिंह	(नं 13620608एम अब जेसी-413885एम)	01 अगस्त 2014
हवलदार(लिपिक) विक्रम सिंह	(नं 13620614एफ अब जेसी-413886पी)	01 अगस्त 2014
हवलदार(लिपिक) मुलिक गोरकनाथ काशीनाथ	(नं 13620679पी अब जेसी-413911एच)	01 सितम्बर 2014
हवलदार(लिपिक) रमेश चन्द यादव	(नं 13620633एम अब जेसी-413925एच)	01 अक्टूबर 2014
हवलदार(लिपिक) ओम प्रकाश चौधरी	(नं 13620500एम अब जेसी-413926एल)	01 अक्टूबर 2014
हवलदार(लिपिक) सि श्रीनिवास	(नं 13620428एल अब जेसी-413920के)	01 अक्टूबर 2014
हवलदार(लिपिक) जितेन्द्र पाल सिंह	(नं 13620718एच अब जेसी-413927एम)	01 अक्टूबर 2014
हवलदार(लिपिक) बोसु कटरगडडा	(नं 13620447एन अब जेसी-413830एच)	01 अप्रैल 2014



		जाट रेजिमेन्ट सूबेदार के रैंक में	
नायब सूबेदार	प्रिय दर्शन सिंह	(जेसी-490245 एच)	01 जनवरी 2013
नायब सूबेदार	मेहर सिंह	(जेसी-490344 एल)	20 फरवरी 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	महेन्द्र सिंह	(जेसी-490368 पी)	01 जनवरी 2013
नायब सूबेदार	सुरेश सिंह	(जेसी-490369 एक्स)	24 जून 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	राजपाल सिंह	(जेसी-490393 एन)	01 जनवरी 2013
नायब सूबेदार	रघुबीर सिंह	(जेसी-490412 एन)	01 जनवरी 2013
नायब सूबेदार	बलराज सिंह	(जेसी-490446 एफ)	01 जनवरी 2013
नायब सूबेदार	अमर नाथ	(जेसी-490454 ए)	21 फरवरी 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	राम चन्द्र जाट	(जेसी-490633 ए)	01 जनवरी 2013
नायब सूबेदार	हीरा राम मुंडेल	(जेसी-490262 एच)	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार	रामवीर सिंह	(जेसी-490468 ए)	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार	केदार सिंह	(जेसी-490471 ए)	05 फरवरी 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	भूरा सिंह	(जेसी-490483 पी)	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार	भूदेव सिंह	(जेसी-490550 पी)	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार	उमेश सिंह चाहर	(जेसी-490592 एफ)	30 मार्च 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	करन सिंह	(जेसी-490634 एच)	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार	पवन कुमार शर्मा	(जेसी-490635 एल)	01 फरवरी 2013
नायब सूबेदार	जयवीर सिंह वर्मा	(जेसी-490358 एल)	29 मार्च 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	लाला राम इनानिया	(जेसी-490346 डब्ल्यू)	16 मार्च 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	भेंवर लाल जाट	(जेसी-490401 एफ)	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	सतीश कुमार	(जेसी-490484 एक्स)	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	रेशपाल सिंह	(जेसी-490492 डब्ल्यू)	01 मार्च 2013
नायब सूबेदार	प्रभु राम	(जेसी-490594 एम)	06 जून 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी)			

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार	प्रेम पाल सिंह	(सँ0 2599253 के अब जेसी-491278 ए)	02 दिसम्बर 2014*
*(नायबसूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 फरवरी 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	कृष्ण कुमार	(सँ0 3186026 एन अब जेसी-491279 एच)	16 फरवरी 2015*
*(नायबसूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	रामबिलास चौयल	(सँ0 3187125 एच अब जेसी-491280 एक्स)	01 जनवरी 2015
हवलदार	अनिल कुमार	(सँ0 3188375 डब्ल्यू अब जेसी-491281 ए)	04 फरवरी 2015*
*(नायबसूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	बाबू लाल जाट	(सँ0 3187146 वाई अब जेसी-491282 एच)	01 फरवरी 2015
हवलदार	शीश पाल शर्मा	(सँ0 3188329 एफ अब जेसी-491283 एल)	20 फरवरी 2015*
*(नायबसूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जायेगी)			
हवलदार	श्रवण कुमार जाट	(सँ0 3186978 एन अब जेसी-491284 एन)	02 मार्च 2015*
*(नायबसूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जायेगी)			

वी एन रविन्द्रन  
अवर सचिव

## थल सेला विभाग

सं. 183, दिनांक 9 जुलाई 2015—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

## नियमित सेना

## इन्फेन्ट्री

## ब्रिगेड ऑफ दी गार्ड्स

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार जसबिन्दर सिंह	(जेसी-404036के)	01 मई 2015
सूबेदार चंद्र प्रकाश	(जेसी-404416एच)	01 जून 2015
सूबेदार मेजर (क्लर्क एस डी) के रैंक में		
सूबेदार (क्लर्क एस डी) शमशाद आलम	(जेसी-404109एल)	01 मई 2015
सूबेदार मेजर (एस के टी) के रैंक में		
सूबेदार (एस के टी) संजीव कुमार	(जेसी-404127एन)	01 मार्च 2015
सूबेदार मेजर (आर टी) के रैंक में		
सूबेदार(आर टी) आदित्यकुमार शर्मा	(जेसी-224154पी)	01 मई 2015
सूबेदार के रैंक में		
नायब सूबेदार अजमेर	(जेसी-404806एल)	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार गुलजारी राम	(जेसी-404931पी)	01 जनवरी 2015
नायब सूबेदार हुकुम सिंह चिराल	(जेसी-404967एन)	24 मार्च 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार यशवन्त सिंह	(जेसी-404720एम)	03 मार्च 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार सुबे सिंह	(जेसी-404955वाई)	01 अप्रैल 2015

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह पुनीया	(जेसी-405015ए)	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार बिजीत हाजारिका	(जेसी-405002एच)	02 मार्च 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भतों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार फतेह सिंह	(जेसी-404880एम)	23 मार्च 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भतों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार बिक्रम सिंह	(जेसी-404652के)	02 मार्च 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भतों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार छोटे लाल	(जेसी-404528एच)	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार जितेन्द्र कुमार कुंडल	(जेसी-404772एच)	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार राम भज शुक्लीया	(जेसी-404855एन)	07 अप्रैल 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भतों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार गोर्धन लाल जाट	(जेसी-404951एच)	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार करना सिंह	(जेसी-404959पी)	01 मई 2015
नायब सूबेदार विपन कुमार	(जेसी-404845के)	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार राम निवास पुनीया	(जेसी-404849ए)	01 मई 2015
नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह	(जेसी-404850पी)	02 मई 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भतों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2015 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार लक्ष्मण प्रसाद सिंह	(जेसी-404627एल)	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार सत्य नारायण दास	(जेसी-404682एफ)	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार जंग बहादुर	(जेसी-404761डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार श्याम सुंदर	(जेसी-404636एम)	23 मार्च 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भतों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)		
नायब सूबेदार शिवा कांत	(जेसी-404637पी)	01 मई 2015
नायब सूबेदार डोंगरे रामू बापुराव	(जेसी-404944एम)	01 मार्च 2015
नायब सूबेदार रणधीर सिंह	(जेसी-404834एक्स)	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार राम सजीवन सिंह	(जेसी-404924वाई)	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार विरेन्द्र कुमार यादवा	(जेसी-404936एन)	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार विनोद कुमार राना	(जेसी-404568के)	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार सुखपति प्रसाद दिक्षित	(जेसी-404770एक्स)	06 मई 2015*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भतों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है)		
सूबेदार (क्लर्क एस डी) के रैंक में		
नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी) आर एसकुर्रा	(जेसी-404977एक्स)	01 अप्रैल 2015
नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी) संदीप कुमार	(जेसी-404990एफ)	01 मई 2015
नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी) गणेश कुमार	(जेसी-404999डब्ल्यू)	01 मई 2015
नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी) योगेन्द्र पाल सिंह आण्णादुराई	(जेसी-405000एक्स)	01 मई 2015
नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी) रमेश चंद्र	(जेसी-405009एम)	01 मई 2015
नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी) शंकर सिंह राठौर	(जेसी-405017एल)	01 मई 2015
नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी) नेत्र प्रकाश	(जेसी-405018एन )	01 मई 2015
नायब सूबेदार (क्लर्क एस डी) बोटांगले पाडुंरंग भाउ	(जेसी-405076एक्स)	01 जून 2015
सूबेदार (आर टी) के रैंक में		
नायब सूबेदार (आर टी) ललीता प्रसाद	(जेसी-403593डब्ल्यू)	01 मई 2015

## कवचित कोर

## नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार/कलर्क	बिकास चक्रोबोर्ती	(सं0 15469642ए अब जेसी-246817पी)	01 जनवरी 2015
दफादार/कलर्क	जितेन्दर सिंह	(सं0 15469695वाई अब जेसी-246818एक्स)	01 जनवरी 2015
दफादार/कलर्क	सतीश कुमार सिंह	(सं0 15469693एन अब जेसी-246874डब्ल्यू)	*07 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार/कलर्क	प्रदीप कुमार चौधरी	(सं0 15469588एक्स अब जेसी-246875 वाई)	*05 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार/कलर्क	राजेश कुमार	(सं0 15469596पी अब जेसी-246876एफ)	*06 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	एस एन सिंह राठोड़	(सं0 1099607एच अब जेसी-246805ए)	01 जनवरी 2015
दफादार	शेर सिंह	(सं0 15462442एफ अब जेसी-246872एल)	*13 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	सुरेन्दर सिंह	(सं0 15465697एम अब जेसी-246871एच)	*10 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			
दफादार/कलर्क	रोहिताश कुमार	(सं0 15469319एल अब जेसी-246877के)	*16 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार/कलर्क	महेन्द्र सिंह खटाना	(सं0 15469554के अब जेसी-246883एक्स)	*02 फरवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार/कलर्क	नरात्तोम रॉय	(सं0 15469636एम अब जेसी-246816एम)	*08 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार/एसकेटी	उमद सिंह	(सं0 15464302एन अब जेसी-246868एच)	01 फरवरी 2015
दफादार	रंजन राकेश	(सं0 15462112एच अब जेसी-246864एम)	*06 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जाती है)			
दफादार	बलविन्दर सिंह डोगरा	(सं0 15467307एक्स अब जेसी-246794वाई)	*13 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	मुकेश कुमार	(सं0 15465759एफ अब जेसी-246856एन)	*01 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	राजेश कुमार	(सं0 15462525एम अब जेसी-246870ए)	01 फरवरी 2015
दफादार	कौशल कुमार	(सं0 15467926एल अब जेसी-246881एम)	*03 फरवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	प्रदीप कुमार	(सं0 15463673के अब जेसी-246889 वाई)	01 फरवरी 2015
दफादार	सीश राम धेतरवाल	(सं0 15467778एल अब जेसी-246892 वाई)	*20 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	अलवेल कुमार	(सं0 15467337पी अब जेसी-246893एफ)	*20 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			

दफादार	मुकेश कुमार	(सं0 15468855एफ अब जेसी-246913के)	*28 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	दयत्यारी बेहरा	(सं0 8033962एफ अब जेसी-246894के)	01 फरवरी 2015
दफादार	प्रदीप कुमार सिंह	(सं0 15464602पी अब जेसी-246895एम)	*27 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	ओमकरन	(सं0 15464537ए अब जेसी-246896पी)	*10 फरवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	बलबिन्दर सिंह	(सं0 15467192पी अब जेसी-246897एक्स)	01 फरवरी 2015
दफादार	हिरा राम	(सं0 15463959 वाई अब जेसी-246899एच)	*28 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 अक्टुबर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	ए सिवा कुमार	(सं0 15468069एच अब जेसी-246905एल)	*02 फरवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	जेया सिंह एन	(सं0 15468193के अब जेसी-246906एन)	*02 फरवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	परषोत्तम सिंह	(सं0 15464669एन अब जेसी-246918एच)	*02 फरवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	सुभाष चन्द्रा	(सं0 15465210एन अब जेसी-246920ए)	*02 फरवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	कुलविन्दर सिंह	(सं0 15466422एल अब जेसी-246921एच)	*02 फरवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	महीपाल सिंह	(सं0 15466411वाई अब जेसी-246922एल)	*02 फरवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	संजीव सिंह	(सं0 15463395एफ अब जेसी-246924डब्ल्यू)	*04 फरवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	राम सिंहासन शर्मा	(सं0 15462823एच अब जेसी-246855एल)	01 फरवरी 2015
दफादार/क्लर्क	धरमेन्द्र	(सं0 15469640पी अब जेसी-246880के)	*09 फरवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	तुल बहादुर छेत्री	(सं0 1099207डब्ल्यू अब जेसी-246803पी)	*01 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 नवम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	राम भंवर सिंह	(सं0 15463074के अब जेसी-246866एक्स)	*13 जनवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	गुरदीप सिंह	(सं0 15467326एच अब जेसी-246873एन)	*02 फरवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	गंगा सिंह	(सं0 15463432के अब जेसी-246888डब्ल्यू)	01 फरवरी 2015
दफादार	सुरेश चन्द्रा यादव	(सं0 15464891पी अब जेसी-246907डब्ल्यू)	*02 फरवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)			

दफादार	किशन कुमार	(सं० 15462568एफ अब जेसी-246919एल)	*03 फरवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	रनबीर सिंह	(सं० 15464465एफ अब जेसी-246925 वाई)	*12 फरवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	रितेश कुमार मिश्रा	(सं० 15464574एन अब जेसी-246928एम)	*16 फरवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	सचीन्द्र कुमार	(सं० 15464352 वाई अब जेसी-246938डब्ल्यू)	*14 फरवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	हरे राम सिंह	(सं० 15464034पी अब जेसी-246939 वाई)	*19 फरवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	बिजेन्द्र सिंह	(सं० 15467643के अब जेसी-246901पी)	01 मार्च 2015
दफादार	अजय वीर सिंह ब्यास	(सं० 15468382एन अब जेसी-246902एक्स)	*02 मार्च 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)			
दफादार	दिबयेन्दु पंजा	(सं० 15464758एम अब जेसी-246914एम)	01 मार्च 2015
दफादार	लाल चन्द	(सं० 15463110के अब जेसी-246941डब्ल्यू)	*21 फरवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	जला साहदेव सिन्ह	(सं० 15467166एन अब जेसी-246942 वाई)	*17 फरवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	मनोहर लाल	(सं० 15467688के अब जेसी-246947एक्स)	*21 फरवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	पाला राम	(सं० 15463400एफ अब जेसी-246948ए)	*19 फरवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	महेन्द्र सिंह	(सं० 15465035के अब जेसी-246972डब्ल्यू)	01 मार्च 2015
दफादार/ क्लर्क	धरमेन्द्र प्रताप सिंह	(सं० 15469545एच अब जेसी-246882पी)	*26 फरवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जाती है)			
दफादार/ क्लर्क	शर्मा परेश कुमार	(सं० 15469610एक्स अब जेसी-246884ए)	*02 मार्च 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)			
दफादार/ क्लर्क	क्रीष्ण बिहारी	(सं० 15469618के अब जेसी-246885एच)	01 मार्च 2015
दफादार/ एसकेटी	जनक सिंह	(सं० 15464830एक्स अब जेसी-246976एम)	01 मार्च 2015
दफादार	मनोज आर एल	(सं० 15491743एन अब जेसी-246820पी)	*01 फरवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	बंकी रमेश	(सं० 15467059एम अब जेसी-246833एम)	*05 मार्च 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	महेन्द्र सिंह	(सं० 15464640एल अब जेसी-246887एन)	*02 मार्च 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)			
दफादार	डी संकरन	(सं० 15467331एन अब जेसी-246904एच)	*03 फरवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			

दफादार	नंद लाल सिंह यादव	(सं0 15464613एफ अब जेसी-246908 वाई)	*04 मार्च 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)			
दफादार	सत्य नारायण	(सं0 15465426पी अब जेसी-246909एफ)	*03 मार्च 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)			
दफादार	वेद प्रकाश	(सं0 15463402एम अब जेसी-246910डब्ल्यू)	*02 मार्च 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)			
दफादार	नंद किशोर सुमन	(सं0 15462679वाई अब जेसी-246911 वाई)	01 मार्च 2015
दफादार	राम निवाज मिश्रा	(सं0 15464081एम अब जेसी-246915पी)	01 मार्च 2015
दफादार	ओम कांवर	(सं0 15464176एम अब जेसी-246916एक्स)	01 मार्च 2015
दफादार	राजेन्द्रा प्रसाद	(सं0 15463955एच अब जेसी-246923एन)	01 मार्च 2015
दफादार	भूपेन्द्र	(सं0 15467988एल अब जेसी-246931एम)	*02 मार्च 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)			
दफादार	हरमत सिंह	(सं0 15462250के अब जेसी-246935एच)	*01 मार्च 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	अरुण कुमार सिंह	(सं0 15466050एल अब जेसी-246954एन)	*28 फरवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	सुभाष चन्द्र	(सं0 15463930डब्ल्यू अब जेसी-246940एन)	*17 फरवरी 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 दिसम्बर 2014 से दी जाती है)			
दफादार	हरी पाल सिंह	(सं0 15464258पी अब जेसी-246959एम)	01 मार्च 2015
दफादार	बेदबीर सिंह	(सं0 15464451एफ अब जेसी-246960एफ)	*02 मार्च 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)			
दफादार	शेडगे गनपत मुगुट राव	(सं0 15465800एम अब जेसी-246965ए)	*04 मार्च 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	जानेश्वर चौबे	(सं0 15465052के अब जेसी-246973वाई)	*10 मार्च 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)			
दफादार	कृष्णा कुमार दुबे	(सं0 15464623एल अब जेसी-246977पी)	*18 मार्च 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)			
दफादार	रविन्दर पाल	(सं0 15466441डब्ल्यू अब जेसी-246898ए)	01 मार्च 2015
दफादार	अवधेश कुमार	(सं0 15464441एक्स अब जेसी-246900एम)	*02 मार्च 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)			
दफादार	सत्य प्रकाश	(सं0 15468439एक्स अब जेसी-246903ए)	01 मार्च 2015
दफादार	मनोजे कुमार सिंह	(सं0 15464614के अब जेसी-246929पी)	*09 मार्च 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	सुभ करन	(सं0 15465538पी अब जेसी-246949एच)	01 अप्रैल 2015
दफादार	कुलदीप सिंह	(सं0 15465768एच अब जेसी-246950एक्स)	01 अप्रैल 2015

दफादार	मंजीत सिंह	(सं० 15465715के अब जेसी-246964एक्स)	*17 मार्च 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	सुरेन्द्र सिंह	(सं० 15468741डब्ल्यू अब जेसी-246966एच)	*11 मार्च 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)			
दफादार	पंकज कुमार	(सं० 15466105के अब जेसी-246978एक्स)	*25 मार्च 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)			
दफादार	क्रीस्टोबर राजन	(सं० 15465364ए अब जेसी-246983एच)	*21 मार्च 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	खीरेस्वर कोलिता	(सं० 15466973डब्ल्यू अब जेसी-246985एन)	*21 मार्च 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	के थंगामनी	(सं० 15464507एच अब जेसी-246943एफ)	*04 अप्रैल 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			
दफादार	मुस्ताक अहमद	(सं० 15464601एम अब जेसी-246944के)	*04 अप्रैल 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			
दफादार	कामेश्वर दास	(सं० 15466072के अब जेसी-246945एम)	*04 अप्रैल 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			
दफादार	मित्तरपाल सिंह	(सं० 15465934एल अब जेसी-246951ए)	01 अप्रैल 2015
दफादार	राजकिशोर नायक	(सं० 15464855के अब जेसी-246957एफ)	01 अप्रैल 2015
दफादार	पी जी उदय कुमार	(सं० 1099678के अब जेसी-246988एफ)	*02 अप्रैल 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	अशोक कुमार	(सं० 15467619एन अब जेसी-246989के)	*01 अप्रैल 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)			
दफादार	बाकी गुरुनाथु	(सं० 15466058एक्स अब जेसी-246990वाई)	*04 अप्रैल 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			
दफादार	मनीरुल शेख	(सं० 15464739एफ अब जेसी-246937एन)	01 अप्रैल 2015
दफादार	अशोक कुमार	(सं० 15465582वाई अब जेसी-246974एफ)	01 अप्रैल 2015
दफादार/कलर्क	सुरिन्दर कुमार	(सं० 15469739एल अब जेसी-246933एक्स)	*09 अप्रैल 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			
दफादार	अशोक कुमार स्वेन	(सं० 15462683एफ अब जेसी-246912एफ)	01 अप्रैल 2015
दफादार	सुभाष	(सं० 15463178एल अब जेसी-246955डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2015
दफादार	सुरेन्द्रा सिंह	(सं० 15469935एल अब जेसी-246958के)	01 अप्रैल 2015
दफादार	धरम वीर	(सं० 15464735एल अब जेसी-246967एल)	01 अप्रैल 2015
दफादार	मुकेश कुमार	(सं० 15464704एल अब जेसी-246975के)	*29 अप्रैल 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	अर्जुन सिंह	(सं० 15463410एल अब जेसी-246993एम)	*11 अप्रैल 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)			
दफादार	सांगले बबन सुखदेव	(सं० 15466597एन अब जेसी-246994पी)	*11 अप्रैल 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2015 से दी जाती है)			



दफादार	राहुल कुमार	(सं0 15468569ए अब जेसी-246998एल)	*24 अप्रैल 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 अप्रैल 2015 से दी जाती है)			
दफादार	दिनेश कुमार चौरशिया	(सं0 15462390डब्ल्यू अब जेसी-247003एच)	*01 मई 2015
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 जनवरी 2015 से दी जाती है)			
दफादार	धीरज कुमार गुप्ता	(सं0 15462519वाई अब जेसी-246854एच)	01 जनवरी 2015
दफादार	दौलत	(सं0 15470177एल अब जेसी-246674ए)	*26 जुलाई 2014
*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जाती है)			

राजीव जौहरी  
अवर सचिव

सेना सचिव शाखा

सं. 184, दिनांक 10 जुलाई 2015—राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 25816 जनरल बिक्रम सिंह, पी वी एस एम, यू वाई एस एम, ए वी एस एम, एस एम, वी एस एम, ए डी सी (सेवानिवृत्त) को 31 जुलाई 2014 अपराहन से अवेतनिक पदेन कर्नल ऑफ राष्ट्रीय राईफल्स के पद से पदमुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष डी आर 10298 लेफ्टिनेन्ट जनरल विमल अरोड़ा, पी वी एस एम, ए वी एस एम, वी एस एम\*\*, पी एच डी एस (सेवानिवृत्त) को 22 मार्च 2015 अपराहन से सेना दन्त चिकित्सा कोर के कर्नल कमांडेन्ट के पद से पदमुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 31638 लेफ्टिनेन्ट जनरल ओम प्रकाश, पी वी एस एम, यू वाई एस एम, ए वी एस एम, एस एम (सेवानिवृत्त) को 30 अप्रैल 2015 अपराहन से कुर्माँड और नागा रेजिमेन्ट तथा कुर्माँड स्काउट के कर्नल ऑफ रेजिमेन्ट के पद से पदमुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 30503 लेफ्टिनेन्ट जनरल जय प्रकाश नेहरा, पी वी एस एम, ए वी एस एम\*\*, ए डी सी (सेवानिवृत्त) को 31 अक्टूबर 2014 अपराहन से कर्नल ऑफ मद्रास रेजिमेन्ट के पद से पदमुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 31324 लेफ्टिनेन्ट जनरल के सुरेन्द्रनाथ, पी वी एस एम, ए वी एस एम\*\*, एस एम, वी एस एम (सेवानिवृत्त) को 28 फरवरी 2015 अपराहन से सेंट्रल इन्डिया होर्स के कर्नल ऑफ रेजिमेन्ट के पद से पदमुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 31324 लेफ्टिनेन्ट जनरल के सुरेन्द्रनाथ, पी वी एस एम, ए वी एस एम\*\*, एस एम, वी एस एम (सेवानिवृत्त) को 28 फरवरी 2015 अपराहन से 74 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ रेजिमेन्ट के पद से पदमुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 36527 लेफ्टिनेन्ट जनरल आर सी चढ़वा, ए वी एस एम, वी एस एम (सेवानिवृत्त) को 31 जनवरी 2015 अपराहन से 88 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ रेजिमेन्ट के पद से पदमुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 31324 लेफ्टिनेन्ट जनरल के सुरेन्द्रनाथ, पी वी एस एम, ए वी एस एम\*\*, एस एम, वी एस एम (सेवानिवृत्त) को 28 फरवरी 2015 अपराहन से 41 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ रेजिमेन्ट के पद से पदमुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 31324 लेफ्टिनेन्ट जनरल के सुरेन्द्रनाथ, पी वी एस एम, ए वी एस एम\*\*, एस एम, वी एस एम (सेवानिवृत्त) को 28 फरवरी 2015 अपराहन से 71 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ रेजिमेन्ट के पद से पदमुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 31118 लेफ्टिनेन्ट जनरल बी एस सच्चर, ए वी एस एम, एस एम, वी एस एम\*\* (सेवानिवृत्त) को 28 फरवरी 2015 अपराहन से कर्नल ऑफ पंजाब रेजिमेन्ट के पद से पदमुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 31324 लेफ्टिनेन्ट जनरल के सुरेन्द्रनाथ, ए वी एस एम\*\*, एस एम, वी एस एम (सेवानिवृत्त) को 28 फरवरी 2015 अपराहन से 55 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ रेजिमेन्ट के पद से पदमुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 36527 लेफ्टिनेन्ट जनरल आर सी चढ़वा, ए वी एस एम (सेवानिवृत्त) को 31 जनवरी 2015 अपराहन से 66 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ रेजिमेन्ट के पद से पदमुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 31134 लेफ्टिनेन्ट जनरल गौतम मूर्थी, ए वी एस एम, वी एस एम (सेवानिवृत्त) को 31 मई 2014 अपराहन से सेना आयुद्ध कोर के कर्नल कमांडेन्ट के पद से पदमुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 31420 लेफ्टिनेन्ट जनरल ए के मेहता, ए वी एस एम, वी एस एम (सेवानिवृत्त) को 31 दिसम्बर 2014 अपराहन से 84 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ रेजिमेन्ट के पद से पदमुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 31420 लेफ्टिनेन्ट जनरल ए के मेहता, ए वी एस एम, वी एस एम (सेवानिवृत्त) को 31 दिसम्बर 2014 अपराहन से 43 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ रेजिमेन्ट के पद से पदमुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 30016 लेफिटेनेन्ट जनरल अनिल चैत, पी वी एस एम, ए वी एस एम, वी एस एम, ए डी सी (सेवानिवृत्त) को 30 जून 2014 अपराहन से 10 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ रेजिमेन्ट के पद से पदमुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 31521 लेफिटेनेन्ट जनरल एस एच कुलकर्णी, पी वी एस एम, ए वी एस एम, वी एस एम\*\* (सेवानिवृत्त) को 30 नवम्बर 2014 अपराहन से 54 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ रेजिमेन्ट के पद से पदमुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 31521 लेफिटेनेन्ट जनरल एस एच कुलकर्णी, पी वी एस एम, ए वी एस एम, वी एस एम\*\* (सेवानिवृत्त) को 30 नवम्बर 2014 अपराहन से 48 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ रेजिमेन्ट के पद से पदमुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 31521 लेफिटेनेन्ट जनरल एस एच कुलकर्णी, पी वी एस एम, ए वी एस एम, वी एस एम\*\* (सेवानिवृत्त) को 30 नवम्बर 2014 अपराहन से 75 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ रेजिमेन्ट के पद से पदमुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 31521 लेफिटेनेन्ट जनरल एस एच कुलकर्णी, पी वी एस एम, ए वी एस एम, वी एस एम\*\* (सेवानिवृत्त) को 30 नवम्बर 2014 अपराहन से 68 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ रेजिमेन्ट के पद से पदमुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 31014 लेफिटेनेन्ट जनरल वी के सक्सेना, पी वी एस एम, ए वी एस एम, वी एस एम (सेवानिवृत्त) को 31 मई 2015 अपराहन से आर्मी एयर डिफेन्स कोर के कर्नल कमांडेन्ट के पद से पदमुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 30462 लेफिटेनेन्ट जनरल ए एस चब्बेवाल, पी वी एस एम, ए वी एस एम, वाई एस एम, ए डी सी (सेवानिवृत्त) को 30 सितम्बर 2014 अपराहन से 67 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ रेजिमेन्ट के पद से पदमुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 30408 लेफिटेनेन्ट जनरल वी के नरुला, ए वी एस एम, एस एम, ए डी सी (सेवानिवृत्त) को 31 अक्टूबर 2014 अपराहन से तोपखाना रेजिमेंट के कर्नल कमांडेन्ट के पद से पदमुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 31052 लेफिटेनेन्ट जनरल शक्ति गुरुंग, पी वी एस एम, यू वाई एस एम, ए वी एस एम, वी एस एम (सेवानिवृत्त) को 31 अक्टूबर 2014 अपराहन से कर्नल ऑफ ग्रिनेडियर रेजिमेन्ट के पद से पदमुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 38612 मेजर जनरल आर पी भद्रन (सेवानिवृत्त) को 30 नवम्बर 2014 अपराहन से कर्नल ऑफ 07 कैवलरी के पद से पदमुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 34337 मेजर जनरल ए के मधोलकर वी एस एम (सेवानिवृत्त) को 30 अप्रैल 2014 अपराहन से 19 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ रेजिमेन्ट के पद से पदमुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 34382 मेजर जनरल टी पी एस वरैच, वी एस एम\*\* (सेवानिवृत्त) को 30 नवम्बर 2014 अपराहन से 11 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ रेजिमेन्ट के पद से पदमुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 34423 मेजर जनरल आलोक देब, एस एम (सेवानिवृत्त) को 01 मई 2014 अपराहन से तोपखाना रेजिमेन्ट के कर्नल कमांडेन्ट के पद से पदमुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 35153 मेजर डी के पुरोहित, ए वी एस एम, एस एम, वी एस एम (सेवानिवृत्त) को 31 जनवरी 2015 अपराहन से कर्नल ऑफ दि महार रेजिमेन्ट के पद से पदमुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति सहर्ष आई सी 35150 मेजर जनरल नीरज पाठक (सेवानिवृत्त) को 31 मार्च 2015 अपराहन से 73 आर्मड रेजिमेन्ट के कर्नल ऑफ रेजिमेन्ट के पद से पदमुक्त करते हैं।

एस सी खनसीली  
निदेशक/एम एस (एक्स)

-----

MINISTRY OF DEFENCE  
MILITARY SECRETARY'S BRANCH

New Delhi, the 1<sup>st</sup> August 2015

No. 181, dated 7th July 2015—The President is pleased to appoint IC-30351 Gen Dalbir Singh, PVSM, UYSM, AVSM, VSM, ADC, COAS as Honorary Colonel of Rashtriya Rifles in an Ex-Officio capacity with effect from 01 Aug 2014 (F/N).

The President is pleased to appoint IC-34838 Lt Gen J George, VSM as Colonel Commandant of the Regiment of Artillery with effect from 01 Nov 2014 (F/N).

The President is pleased to appoint IC-35226 Lt Gen KG Krishna, SM, VSM as Colonel of the Grenadiers Regiment with effect from 01 Nov 2014 (F/N).

The President is pleased to appoint IC-34379 Lt Gen Rajiv Bhatia, AVSM as Colonel Commandant of Corps of the Army Air Defence with effect from 01 Jun 2015 (F/N).

The President is pleased to appoint IC-34350 Lt Gen KJ Singh, AVSM\*\* as Colonel of the 54 Armoured Regiment with effect from 01 Dec 2014 (F/N).

The President is pleased to appoint IC-35915 Lt Gen Rajeev Tiwari as Colonel of the 84 Armoured Regiment with effect from 01 Jan 2015 (F/N).

The President is pleased to appoint IC-34350 Lt Gen KJ Singh, AVSM\*\* as First Colonel of the 58 Armoured Regiment with effect from 20 Jan 2015 (F/N).

The President is pleased to appoint IC-35965 Lt Gen RR Nimbhorkar, AVSM, SM\*\*, VSM as Colonel of the Punjab Regiment with effect from 01 Mar 2015 (F/N).

The President is pleased to appoint IC-34350 Lt Gen KJ Singh, AVSM\*\* as Colonel of the 41 Armoured Regiment with effect from 01 Mar 2015 (F/N).

The President is pleased to appoint IC-34890 Lt Gen SL Narasimhan, AVSM, VSM as Colonel of the Madras Regiment with effect from 01 Nov 2014 (F/N).

The President is pleased to appoint IC-35987 Lt Gen DR Soni, VSM as Colonel of the Central India Horse with effect from 01 Mar 2015 (F/N).

The President is pleased to appoint IC-35650 Lt Gen BC Methews, AVSM, VSM as Colonel of the Kumaon and Naga Regiment & Kumaon Scouts with effect from 01 May 2015 (F/N).

The President is pleased to appoint DR-10358 Lt Gen TK Bandyopadhyay as Colonel Commandant of Army Dental Corps with effect from 30 Mar 2015 (F/N).

The President is pleased to appoint IC-35602 Lt Gen AB Shivane, VSM as Colonel of the 73 Armoured Regiment with effect from 01 Apr 2015 (F/N).

The President is pleased to appoint IC-40293 Maj Gen AS Kler, VSM as Colonel of the 74 Armoured Regiment with effect from 01 Mar 2015 (F/N).

The President is pleased to appoint IC-38097 Maj Gen Ajay Kumar Pant as Colonel of the 88 Armoured Regiment with effect from 01 Feb 2015 (F/N).

The President is pleased to appoint IC-39101 Maj Gen Manoj Arun Oka as Colonel of the Mahar Regiment with effect from 01 Feb 2015 (F/N).

The President is pleased to appoint IC-40101 Maj Gen RK Jagga, VSM as Colonel of the 55 Armoured Regiment with effect from 01 Mar 2015 (F/N).

The President is pleased to appoint IC-39458 Maj Gen AP Dere as Colonel of the 66 Armoured Regiment with effect from 01 Feb 2015 (F/N).

The President is pleased to appoint IC-38731 Maj Gen SS Lamba, SM as Colonel Commandant of Army Ordnance Corps with effect from 06 Jan 2015 (F/N).

The President is pleased to appoint IC-35929 Maj Gen Vinod Vashisht, VSM as Colonel Commandant of the Regiment of Artillery with effect from 01 Jan 2015 (F/N).

The President is pleased to appoint IC-39673 Maj Gen JS Yadav, SM as Colonel of the 43 Armoured Regiment with effect from 01 Jan 2015 (F/N).

The President is pleased to appoint IC-40293 Maj Gen AS Kler as Colonel of the 68 Armoured Regiment with effect from 01 Dec 2014 (F/N).

The President is pleased to appoint IC-38097 Maj Gen Ajay Kumar Pant as Colonel of the 75 Armoured Regiment with effect from 01 Dec 2014 (F/N).

The President is pleased to appoint IC-40293 Maj Gen AS Kler as Colonel of the 48 Armoured Regiment with effect from 01 Dec 2014 (F/N).

The President is pleased to appoint IC-39450 Maj Gen Amrit Pal Singh as Colonel of the 11 Armoured Regiment with effect from 01 Dec 2014 (F/N).

The President is pleased to appoint IC-38696 Maj Gen Narinder Pal Singh as Colonel Commandant of the 07 Cavalry with effect from 01 Dec 2014 (F/N).

The President is pleased to appoint IC-40679 Brig AK Sanyal as Colonel of the 19 Armoured Regiment with effect from 30 Oct 2014 (F/N).

The President is pleased to appoint IC-40753 Brig MJS Kahlon as Colonel of the 67 Armoured Regiment with effect from 30 Oct 2014 (F/N).

The President is pleased to appoint IC-40722 Brig Kulpreet Singh as Colonel of the 10 Armoured Regiment with effect from 25 Nov 2014 (F/N).

The President is pleased to appoint IC-39915 Brig Amardeep Bhardwaj as Colonel of the 71 Armoured Regiment with effect from 01 Mar 2015 (F/N).

SC KHANSILI  
Dir/MS (X)

ARMY BRANCH

No. 182, Dated 8<sup>th</sup> July 2015—The President is pleased to make the following promotions.

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE KUMAON REGIMENT

To be Subedar Major

Sub (RT)	Laxmi Datt Bhatt	JC-212469M	01 Mar 15
Sub	Bahadur Singh Bhandari	JC-540444P	01 Mar 15
Sub/Clk	Gurnam Singh	JC-540177Y	01 Apr 15
Sub	Satyavir	JC-540279P	01 Apr 15

To be Nb Sub

Hav/Clk (SD)	Raj Kumar	4184517F Now JC-541545P	01 Jan 15
Hav/Clk (SD)	Shinder Pal	4186095A Now JC-541546X	01 Jan 15
Hav/Clk (SD)	Jai Prakash	4186228L Now JC-541547A	01 Jan 15
Hav	Tikender Singh	4184852L Now JC-541548H	01 Jan 15
Hav	Pushkar Singh	4184853N Now JC-541549L	02 Jan 15/01 Jan 15*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 15 without effect on pay and allowances.			
Hav	Bhim Chand Rajan	4184863X Now JC-541550A	01 Jan 15
Hav	Pramod Kumar Joshi	4184893P Now JC-541551H	01 Jan 15

Hav	Har Singh	4184901H Now JC-541552L	01 Jan 15
Hav	Mahendra Singh	4184998Y Now JC-541553N	23 Jan 15/01 Jan 15*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 15 without effect on pay and allowances.			
Hav	Satish Kumar	4185933X Now JC-541554W	01 Jan 15
Hav	Rajendra Prasad Kandpal	4185400P Now JC-541555Y	01 Jan 15
Hav	Pratap Singh	4184015Y Now JC-541556F	01 Jan 15
Hav	Jagat Singh	4185774L Now JC-541557K	01 Jan 15
Hav	Chamo Singh	4185775N Now JC-541558M	01 Jan 15
Hav	Rajendra Giri, SM	4184328X Now JC-541559P	02 Jan 15/01 Jan 15*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 15 without effect on pay and allowances.			
Hav	Rajendra Singh Dhama	4184330P Now JC-541560K	01 Jan 15
Hav	Praveen Singh	4184489A Now JC-541561M	01 Jan 15
Hav	Hari Krishan	4186387H Now JC-541562P	23 Jan 15/01 Jan 15*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 15 without effect on pay and allowances.			
Hav/Clk (SD)	Manmohan Singh Kumayan	4184219L Now JC-541563X	27 Jan 15/22 Jan 15*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Jan 15 without effect on pay and allowances.			
Hav/Clk (SD)	Mohan Singh	4185966H Now JC-541564A	01 Feb 15
Hav/Clk (SD)	Shegokar Sanju Bhaskar	1486908F Now JC-541565H	01 Feb 15
Hav	Madan Singh	4185494X Now JC-541566L	01 Feb 15
Hav	Jagapal Singh Rathore	4185420H Now JC-541567N	01 Feb 15
Hav	Bachi Singh	4184690L Now JC-541568W	01 Feb 15
Hav	Mohan Singh	4184996N Now JC-541569Y	01 Feb 15
Hav	Chet Ram Yadav	4185531A Now JC-541570N	08 Apr 15/01 Jan 15*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 15 without effect on pay and allowances.			
Hav	Govind Singh	4185163W Now JC-541571W	31 Mar 15/15 Feb 15*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Feb 15 without effect on pay and allowances.			
Hav/Clk (SD)	Harikesh Kumar	4184011H Now JC-541572Y	01 Mar 15
Hav/Clk (SD)	Narayan Datt Gururani	4184754L Now JC-541573F	12 Mar 15/01 Mar 15*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 15 without effect on pay and allowances.			
Hav	Devender Kumar	4185200Y Now JC-541574K	01 Mar 15
Hav	Kishan Singh Chauhan	4185341N Now JC-541575M	01 Mar 15
Hav	Karan Singh	4186798F Now JC-541576P	02 Mar 15/01 Mar 15*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 15 without effect on pay and allowances.			
Hav	Devendra Singh Karki	4185003W Now JC-541577X	27 Mar 15/03 Mar 15*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 03 Mar 15 without effect on pay and allowances.			
Hav	Jagat Singh Dhama	4184180K Now JC-541578A	02 Apr 15/19 Mar 15*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Mar 15 without effect on pay and allowances.			
NAGA REGT			

Hav	Kundan Singh	14703080W Now JC-590389A	02 Feb 15/01 Feb 15*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 15 without effect on pay and allowances.			
Hav	Kamal Singh	14702947W Now JC-590390P	02 Feb 15/01 Feb 15*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 15 without effect on pay and allowances.			
Hav	E Zhulow	14703027L Now JC-590391X	01 Feb 15
Hav	PS Kenneth Anal	14702925X Now JC-590392A	01 Feb 15
Hav	CH Benaching Monyon	14703028N Now JC-590393H	01 Feb 15
Hav	K Thohrii	14703112N Now JC-590394L	14 Feb 15/01 Feb 15*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 15 without effect on pay and allowances.			
Hav	Mohan Singh	14702919K Now JC-590395N	01 Mar 15
Hav	Rajendra Singh Bisht	4185298X Now JC-590396W	05 Apr 15/01 Mar 15*
*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 15 without effect on pay and allowances.			
Hav	S Yanger	14703013L Now JC-590397Y	20 Mar 15

THE SIKH REGIMENT

To be Subedar (GD)

Nb Sub	Sukhdev Singh	JC-500337L	01 Sep 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Kashmir Singh	JC-500382X	20 Aug 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Jaspal Singh	JC-500478A	01 Sep 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Harpal Singh	JC-500474K	04 Dec 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Darbar Singh	JC-500501H	22 Oct 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Jagjit Singh	JC-500521W	19 Dec 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Jarnail Singh	JC-500683F	08 Oct 2014
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Avtar Singh	JC-500703K	01 Oct 2014
Nb Sub	Mohan Singh	JC-500233K	17 Jan 2015
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Jarnail Singh	JC-500301M	01 Jan 2015
Nb Sub	Ajit Singh	JC-500324N	01 Jan 2015
Nb Sub	Jinderpal Singh	JC-500355N	01 Jan 2015
Nb Sub	Natha Singh	JC-500356W	01 Jan 2015

Nb Sub	Vir Singh	JC-500365X	17 Jan 2015
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Balwinder Singh	JC-500390W	12 Jan 2015
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Parminder Singh	JC-500391Y	01 Jan 2015
Nb Sub	Kuljeet Singh	JC-500438Y	24 Jan 2015
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Bhupinder Singh	JC-500450A	24 Jan 2015
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Baljinder Singh	JC-500458M	01 Jan 2015
Nb Sub	Tara Singh	JC-500645L	02 Feb 2015
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Bawa Singh	JC-500646M	17 Jan 2015
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Gurmail Singh	JC-500642X	13 Jan 2015
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Surender Singh	JC-500490F	01 Feb 2015
Nb Sub	Dilbagh Singh	JC-500508M	01 Feb 2015
Nb Sub	Daljit Singh	JC-500515H	01 Feb 2015
Nb Sub	Hardeep Singh	JC-500581L	01 Feb 2015
Nb Sub	Jasbir Singh	JC-500577H	02 Feb 2015
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Jagtar Singh	JC-500599F	02 Feb 2015
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances			
Nb Sub	Gurbax Singh	JC-500612A	02 Feb 2015
Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances			
To be Subedar (RT)			
Nb Sub (RT)	Harbhajan Singh	JC-499267H	01 Jan 2015
Nb Sub (RT)	Kuldeep Singh	JC-499433L	01 Jan 2015
Nb Sub (RT)	Surinder Singh	JC-499434N	01 Jan 2015
To be Naib Subedar			
Hav	Baljeet Singh	(3393124A now JC-500959M)	01 Sep 2014
Hav	Sinderpal Singh	(3392874M now JC-500960F)	19 Dec 2014
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowances			
Hav	Maljinder Singh	(3394074M now JC-500961K)	16 Dec 2014
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2014 without effect on pay and allowance			
Hav	Sarabjit Singh	(3392701P now JC-500962M)	13 Dec 2014

Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances		
Hav	Avtar Singh	(3392624L now JC-500963P) 05 Feb 2015
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Nov 2014 without effect on pay and allowances		
Hav	Gulzar Singh	(3392892P now JC-500964X) 20 Jan 2015
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances		
Hav	Rajbir Singh	(3394120W now JC-500965A) 15 Jan 2015
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances		
Hav	Harjit Singh	(3394482Y now JC-500966H) 01 Jan 2015
Hav	Balwinder Singh	(3394547A now JC-500967L) 01 Jan 2015
Hav	Gobinder Singh	(3394674P now JC-500968N) 01 Jan 2015
Hav	Balwinder Singh	(3394624K now JC-500969W) 01 Jan 2015
Hav	Kulwinder Singh	(3394816F now JC-500970L) 01 Jan 2015
Hav	Jagsir Singh	(3394998P now JC-500971N) 01 Jan 2015
Hav	Jatinder Singh	(3394399A now JC-500972W) 20 Jan 2015
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances		
Hav	Sahab Singh	(3395961L now JC-500973Y) 04 Feb 2015
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances		
Hav	Daljit Singh	(3406093M now JC-500974F) 01 Jan 2015
Hav	Sukhvir Singh	(3395135L now JC-500975K) 01 Jan 2015
Hav	Ranjit Singh	(3394827N now JC-500976M) 15 Jan 2015
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances		
Hav	Ranjodh Singh	(3397251M now JC-500977P) 31 Jan 2015
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances		
Hav	Jasbir Singh Kunnar	(3395557W now JC-500978X) 29 Jan 2015
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances		
Hav	Gurmeet Singh	(3397616W now JC-500979A) 31 Jan 2015
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances		
Hav	Parminderjit Singh	(3397707A now JC-500980P) 31 Jan 2015
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances		
Hav	Harsharan Singh	(3396108N now JC-500981X) 17 Jan 2015
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances		
Hav	Kawaljit Singh	(3392883N now JC-500982A) 02 Feb 2015
Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances		
Hav	Harpal Singh	(3401861Y now JC-500983H) 01 Feb 2015
Hav	Kashmir Singh	(3393223H now JC-500984L) 01 Feb 2015
Hav	Surjit Singh	(3393229K now JC-500985N) 01 Feb 2015
Hav	Jasbir Singh	(3396223N now JC-500986W) 02 Feb 2015



Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances

Hav Sukhjit Singh (3396256Y now JC-500987Y) 02 Feb 2015

Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances

#### THE MADRAS REGIMENT

##### To be Nb Sub

Hav P Jeyaprakasam	((2598829K now JC441101W)	27 Sep 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and allces)		
Hav S Suresh	(2599305P now JC441102Y)	27 Sep 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and allces)		
Hav K Karthikeyan	(2599336P now JC441103F)	04 Oct 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and allces)		
Hav Siddappa Mugali	(2596247L now JC441104K)	27 Oct 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Jul 14 without effect on pay and allces)		
Hav Satheesh Kumar Bollada	(2598764F now JC441105M)	18 Oct 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Jul 14 without effect on pay and allces)		
Hav Dova Veera Sekhara Rao	(2598869L now JC441106P)	14 Oct 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Jul 14 without effect on pay and allces)		
Hav Vinu MP	(2598908Y now JC441107X)	12 Sep 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Jul 14 without effect on pay and allces)		
Hav Edwin H	(2599126P now JC441108A)	10 Nov 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Jul 14 without effect on pay and allces)		
Hav Balaji AM	2606567W now JC441109H)	29 Aug 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 27 Jul 14 without effect on pay and allces)		
Hav (Clk) Suresan EV	(2598126H now JC441110X)	02 Aug 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 Aug 14 without effect on pay and allces)		
Hav (Clk) Thakur Akhileshwar Singh Parmar	(2598177W now JC441111A)	04 Aug 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 Aug 14 without effect on pay and allces)		
Hav Surendra Ponnada	(2597661W now JC441112H)	01 Aug 14
Hav Radhakrishnan N	(2596843X now JC441113L)	01 Aug 14
Hav Dandapani V	(2598385L now JC441114N)	02 Aug 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 14 without effect on pay and allces)		
Hav Sebastian Daniel	(2599362W now JC441115W)	05 Aug 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 14 without effect on pay and allces)		
Hav Sampath BK	(2597985F now JC441116Y)	01 Sep 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 11 Aug 14 without effect on pay and allces)		
Hav T Venkatesulu	(2595510Y now JC441118K)	03 Oct 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Aug 14 without effect on pay and allces)		
Hav Sathi Kumar R	(2596545F now JC441119M)	10 Oct 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Aug 14 without effect on pay and allces)		
Hav Keppeta Nageswar Reddy	(2596662M now JC441120F)	04 Oct 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Aug 14 without effect on pay and allces)		
Hav Sivadas MB	(2596891X now JC441121K)	06 Oct 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Aug 14 without effect on pay and allces)		
Hav Sanal Kumar TR	(2597166X now JC441122M)	01 Oct 14*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Aug 14 without effect on pay and allces)		
Hav Pramod PP	(2597996N now JC441123P)	18 Sep 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 14 without effect on pay and allces)		
Hav Venkata Ramana Bantrothu	(2597998Y now JC441124X)	01 Sep 14
Hav Pradeep KG	3394468L now JC441125A)	01 Sep 14
Hav Shashikant Manas	(2596171W now JC441126H)	10 Sep 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 14 without effect on pay and allces)		
Hav Suresh R	13621413P now JC441127L)	29 Sep 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 14 without effect on pay and allces)		
Hav Anil Kumar M	(2597012L now JC441128N)	13 Sep 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 14 without effect on pay and allces)		
Hav Rajeev R	(2598545A now JC441129W)	25 Sep 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 14 without effect on pay and allces)		
Hav Sadhananda BK	(2598478A now JC441130L)	02 Sep 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 14 without effect on pay and allces)		
Hav Srinivasa Rao Singupurapu	(2598652F now JC441131N)	01 Sep 14
Hav Health Marx A	(2598994P now JC441132W)	15 Sep 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 14 without effect on pay and allces)		
Hav Unnikrishnan P	(2598465H now JC441133Y)	01 Oct 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Sep 14 without effect on pay and allces)		
Hav Sajeev KV	(2598786A now JC441134F)	07 Oct 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Sep 14 without effect on pay and allces)		
Hav V Venkateswarlu	(2597311K now JC441135K)	30 Sep 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Sep 14 without effect on pay and allces)		
Hav AK Mohana Sundaram	(2594739L now JC441136M)	04 Nov 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 14 without effect on pay and allces)		
Hav Varakala Balanarayana	(2595489F now JC441137P)	04 Nov 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 14 without effect on pay and allces)		
Hav Shiju P	(2598002N now JC441138X)	05 Nov 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 28 Sep 14 without effect on pay and allces)		
Hav (Clk) Pramod Kumar	(2598210H now JC441139A)	03 Nov 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 14 without effect on pay and allces)		
Hav (Clk) D Kannan	(2598278K now JC441140P)	01 Oct 14
Hav (Clk) Baldev Singh	(2598322H now JC441141X)	01 Oct 14
Hav (Clk) Subhankar Roy	(2598348X now JC441142A)	01 Nov 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 14 without effect on pay and allces)		
Hav (Clk) Nemji Kathat	(2598635F now JC441143H)	31 Oct 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 14 without effect on pay and allces)		
Hav (Clk) Ramesh K	(2598683F now JC441144L)	15 Oct 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 14 without effect on pay and allces)		
Hav (Clk) Arvind Kumar	(2598684K now JC441145N)	01 Oct 14
Hav (Clk) PT Binesh	(2598714W now JC441146W)	10 Nov 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 14 without effect on pay and allces)		
Hav Alfred R	2601645Y now JC441147Y)	03 Nov 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 14 without effect on pay and allces)		
Hav Siva Prasad Yenumula	(2598762W now JC441148F)	27 Dec 14*

---

---

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 14 without effect on pay and allces)		
Hav Majjari Nageswara Rao	(2595829Y now JC441149K)	19 Nov 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Sep 14 without effect on pay and allces)		
Hav Radha S	(2597349N now JC441150Y)	15 Nov 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Oct 14 without effect on pay and allces)		
Hav Shaji Simon	(2597920N now JC441151F)	24 Nov 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Oct 14 without effect on pay and allces)		
Hav P Ganesan	(2597701M now JC441152K)	20 Dec 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Oct 14 without effect on pay and allces)		
Hav (Clk) Antony Prince OJ	(2598716F now JC441153M)	01 Dec 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 01 Nov 14 without effect on pay and allces)		
Hav M Sreenivasulu	(2596536A now JC441154P)	21 Nov 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 14 without effect on pay and allces)		
Hav K Mallesham	(2596592Y now JC441155X)	15 Nov 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 14 without effect on pay and allces)		
Hav Ashok Talawar	(2596633X now JC441156A)	15 Nov 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 14 without effect on pay and allces)		
Hav Sathiyam M	(2597351L now JC441157H)	19 Nov 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 14 without effect on pay and allces)		
Hav A Madhusudana Reddy	(2598098F now JC441158L)	05 Nov 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 14 without effect on pay and allces)		
Hav Arokia Rajiv	2616889K now JC441160H)	23 Dec 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Oct 14 without effect on pay and allces)		
Hav Sathish Kumar CS	(2597139N now JC441161L)	19 Dec 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Oct 14 without effect on pay and allces)		
Hav Gunalan S	(2597206N now JC441162N)	23 Dec 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Oct 14 without effect on pay and allces)		
Hav Ramadas N	(2595105F now JC441163W)	19 Jan 15*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 14 without effect on pay and allces)		
Hav Shaik Rahamthullah	(2596487H now JC441164Y)	01 Jan 15*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 14 without effect on pay and allces)		
Hav Sinesh KP	(2597729M now JC441165F)	16 Dec 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 14 without effect on pay and allces)		
Hav Dasaratha Rao M	(2598959M now JC441166K)	23 Dec 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 14 without effect on pay and allces)		
Hav Subhash KV	(2597238W now JC441167M)	19 Dec 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 14 without effect on pay and allces)		
Hav Somaling Rotti	(2595854X now JC441168P)	24 Jan 15*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Nov 14 without effect on pay and allces)		
Hav (Clk) Asagar Ali	(2598769A now JC441169X)	01 Dec 14
Hav Ramayan Singh Yadav	(2598774L now JC441170M)	16 Dec 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 14 without effect on pay and allces)		
Hav G Murugan	(2597049M now JC441171P)	11 Dec 14*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 14 without effect on pay and allces)		
Hav Lakshminarayanal Bhukta	(2597251A now JC441172X)	08 Jan 15*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 14 without effect on pay and allces)		

Hav (Musn) K Uma Kumar	(2596656Y now JC441173A)	01 Dec 14*
Hav Lakshmana DP	(2597256Y now JC441174H)	07 Mar 15*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Dec 14 without effect on pay and allces)		
Hav D Ilavarasan	(2599232N now JC441175L)	17 Feb 15*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Dec 14 without effect on pay and allces)		
Hav Esakki Muthu A	(2598748K now JC441176N)	17 Feb 15*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Dec 14 without effect on pay and allces)		
Hav (Clk) Musale Dattatray Arjuna	(2598817P now JC441177W)	01 Jan 15
Hav (Clk) Naba Kumar Biswas	(2598854H now JC441178Y)	01 Jan 15
Hav S Alagumalai	(2597511A now JC441179F)	20 Jan 15*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 15 without effect on pay and allces)		
Hav Sreenivasa Murthy PK	(2599002A now JC441180W)	01 Jan 15
Hav T Damodaran	(2597840W now JC441181Y)	09 Feb 15*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 15 without effect on pay and allces)		
Hav Murugesan D	(2599255P now JC441182F)	16 Feb 15*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Jan 15 without effect on pay and allces)		
Hav A Sreenivasa Reddy	(2598203M now JC441183K)	09 Feb 15*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 11 Jan 15 without effect on pay and allces)		
Hav Motaiah KA	(2597531N now JC441184M)	18 Feb 15*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Nov 14 without effect on pay and allces)		
Hav Nageswara Rao Pagadala	(2598426K now JC441185P)	28 Feb 15*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Jan 15 without effect on pay and allces)		
Hav Yashavantha Kumar VK	(2598157H now JC441186X)	21 Mar 15*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 29 Jan 15 without effect on pay and allces)		
Hav (Clk) Hafiz Ali	(2598265M now JC441187A)	01 Feb 15
Hav (Clk) Sunny PV	(2598866X now JC441188H)	01 Feb 15
Hav (Clk) Ajith C Varghese	(2598937N now JC441189L)	02 Feb 15*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 15 without effect on pay and allces)		
Hav (Clk) Sri Devendra Singh Baghel	(2599013M now JC441190A)	01 Feb 15
Hav (Clk) Mahendra Singh	(2599033A now JC441191H)	02 Feb 15*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 15 without effect on pay and allces)		
Hav (Clk) Nagendra Kumar Prabhakar	(2599037W now JC441192L)	01 Feb 15
Hav (Clk) Mrinal Kanthi Som	(2598670K now JC441193N)	01 Feb 15
Hav (Clk) Prakash Singh	(2599151N now JC441194W)	02 Feb 15*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 15 without effect on pay and allces)		
Hav (Clk) Mohan Singh	(2599152W now JC441195Y)	02 Feb 15*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 15 without effect on pay and allces)		
Hav (Clk) Salunkhe Shivaji Mallu	(2599167Y now JC441196F)	01 Feb 15
Hav Krishnan T	(2597921W now JC441197K)	20 Feb 15*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 15 without effect on pay and allces)		
Hav Loganathan S, SM	(2598370H now JC441198M)	20 Feb 15*
*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 15 without effect on pay and allces)		
Hav Hassanar A	(2597406K now JC441199P)	01 Feb 15

Hav J Thirumala

(2598361F now JC441200Y)

01 Feb 15

## THE PARACHUTE REGIMENT

## TO BE NB SUB

Hav Mohan Singh	(No 4187085H Now JC-413883F)	01 Jun 2014
Hav Bhupal Singh	(No 4187122H Now JC-413894N)	08 Jun 2014
Hav Tilak Raj	(No 13620655L Now JC-413901Y)	22 Jun 2014
Hav Shashi Pal	(No 13758631A Now JC-413902F)	01 Jul 2014
Hav Bhudev Singh Narwar	(No 3188231N Now JC-413913N)	17 Aug 2014
Hav Satish Kumar , SM	(No 3994499H Now JC-413914W)	01 Sep 2014
Hav Pushkar Singh Chuphal	(No 4188191N Now JC-413928W)	01 Sep 2014
Hav Romesh Chander	(No 3994760X Now JC-413929Y)	28 Sep 2014
Hav Subhash Chand	(No 3994820F Now JC-413940X)	01 Oct 2014
Hav Sanjeev Kumar	(No 14922189P Now JC-413941A)	01 Oct 2014
Hav Nongmaithem Surjit Singh	(No 4364048M Now JC-413942H)	01 Oct 2014
Hav Mohd Raqeeb, SM	(No 9097292H Now JC-413980Y)	01 Oct 2014
Hav Jaishi Ram	(No 3995537A Now JC-413949M)	01 Oct 2014
Hav Ajay Kumar	(No 1492343X Now JC-413952M)	01 Nov 2014
Hav Rumale Shivaji Hari	(No 14416990K Now JC-413966M)	01 Nov 2014
Hav Rajan, SC	(No 13621161N Now JC-413953P)	01 Nov 2014
Hav Game Suresh Bapu	(No 2793321A Now JC-413967P)	01 Nov 2014
Hav Birbal Singh	(No 13621218X Now JC-413950F)	01 Nov 2014
Hav Arun Kumar	(No 13621337N Now JC-413951K)	01 Dec 2014
Hav Vilas Kallekar	(No 13619798Y Now JC-413807P)	01 Nov 2013
Hav Manoj Kumar S	(No 13621157L Now JC-413808X)	01 Jan 2014
Hav Ramesh Kumar	(No 13621387Y Now JC-413809A)	01 Jan 2014
Hav Gurav Nand Kishore Pandurang	(No 13621390Y Now JC-413815N)	01 Jan 2014
Hav Mahesh Mandala Geri	(No 13621431X Now JC-413819K)	04 Feb 2014
Hav Gulab Singh	(No 3996632Y Now JC-413861H)	01 Apr 2014
Hav Surinder Kumar	(No 2690059H Now JC-413851Y)	01 Apr 2014
Hav K Ganesan	(No 13621547N Now JC-413864W)	01 May 2014
Hav Pawan Singh	(No 2489023N Now JC-413850W)	01 May 2014
Hav Fulchand Kumar Yadav	(No 15131320X Now JC-413881W)	07 May 2014
Hav Peeyashpal Singh	(No 2690558X Now JC-413909L)	01 Jun 2014
Hav Pankaj Kumar Singh	(No 13697685X Now JC-413907A)	01 Jun 2014
Hav Deepak Kumar Thapa	(No 5248701M Now JC-413880N)	01 Jul 2014
Hav Kadam Raja Ram Babu	(No 13621874Y Now JC-413921M)	01 Sep 2014
Hav Vinod Singh	(No 4078741H Now JC-413933F)	01 Sep 2014
Hav Lalit Prasad Joshi	(No 13618947P Now JC-413824P)	12 Jan 2014
Hav Indra Singh	(No 13619383K Now JC-413835F)	01 Apr 2014
Hav Prahlad Acharya	(No 13619434M Now JC-413836K)	01 Apr 2014
Hav Naveen Shah	(No 13619584H Now JC-413837M)	01 Apr 2014

Hav Harish Singh Bisht	(No 13619586N Now JC-413846N)	01 Apr 2014
Hav Bhuwan Chandra Arya	(No 13619640W Now JC-413863N)	01 Apr 2014
Hav Devendra Kumar Kalpasi	(No 13619713X Now JC-413857A)	01 Apr 2014
Hav Mohan Singh	(No 13619755K Now JC-413858H)	01 Apr 2014
Hav Rajendra Singh	(No 13619768F Now JC-413859L)	01 May 2014
Hav Ramesh Singh	(No 13619786K Now JC-413860A)	01 May 2014
Hav Bhupal Singh Jarmal	(No 13619787M Now JC-413875H)	30 May 2014
Hav Chanchal Singh Pawar	(No 13620008L Now JC-413982K)	01 Oct 2014
Hav Birendra Singh	(No 13619893L Now JC-413985X)	01 Nov 2014
Hav Ranjodh Singh	(No 13620636A Now JC-413840M)	01 Feb 2014
Hav Davinder Singh	(No 13621105P Now JC-413854M)	21 Mar 2014
Hav Ishwari Prasad Kunwar	(No 13621775W Now JC-413856X)	01 Apr 2014
Hav Rajinder Kumar	(No 13621784Y Now JC-413908H)	01 Apr 2014
Hav Sanjay Singh	(No 13621513A Now JC-413855P)	01 Apr 2014
Hav Ashwani Kumar	(No 13621774N Now JC-413882Y)	01 May 2014
Hav Vijay Singh	(No 13621880A Now JC-413918M)	28 Jun 2014
Hav Ujjal Sarkar	(No 13622092P Now JC-413924A)	01 Sep 2014
Hav Ashok Kumar	(No 13622267M Now JC-413919P)	01 Sep 2014
Hav Shaji V	(No 13622275L Now JC-413922P)	01 Oct 2014
Hav Manoj Bisht	(No 13622349P Now JC-413923X)	01 Oct 2014
Hav Shiv Singh	(No 13619277L Now JC-413806M)	01 Nov 2013
Hav Ajane Sanjiv Ram Rao	(No 13618665W Now JC-413832N)	01 Feb 2014
Hav Debendra Singh	(No 13619029P Now JC-413833W)	01 Feb 2014
Hav Sanjay Kumar Adhikari	(No 13619035H Now JC-413834Y)	01 Feb 2014
Hav Dhani Chand	(No 13619293H Now JC-413895W)	01 Jun 2014
Hav Mahender Singh	(No 13619333Y Now JC-413896Y)	01 Jun 2014
Hav Narayan Singh Thayat	(No 13619356A Now JC-413897F)	05 Jun 2014
Hav Hans Raj	(No 13619429F Now JC-413898K)	05 Jun 2014
Hav Shiv Kumar Singh	(No 13619662P Now JC-413899M)	05 Jun 2014
Hav Suneel Kumar	(No 13619687F Now JC-413915F)	01 Sep 2014
Hav Gajender Singh	(No 13619760P Now JC-413937X)	01 Nov 2014
Hav Pramod Kumar Yadava	(No 13619785F Now JC-413973H)	01 Dec 2014
Hav Ram Lakshan Singh Yadav	(No 13619944N Now JC-413971X)	01 Dec 2014
Hav Mahesh Singh	(No 13620007H Now JC-413972A)	01 Dec 2014
Hav Gurshant Singh	(No 13619919P Now JC-413810P)	01 Jan 2014
Hav Rajesh Kumar	(No 13620011L Now JC-413838P)	01 Apr 2014
Hav Naresh Singh	(No 13620031Y Now JC-413849F)	01 May 2014
Hav Prem Singh	(No 13620034M Now JC-413853K)	10 May 2014
Hav Amarjit Singh	(No 13620086H Now JC-413876L)	10 May 2014
Hav Major Singh Sandhu	(No 13620087L Now JC-413884K)	01 Jun 2014
Hav Bhanwar Singh Shekhawat	(No 13619681A Now JC-413891A)	14 Jun 2014

Hav Ranjeet Singh	(No 13619795L Now JC-413892H)	14 Jun 2014
Hav Manoj Kumar	(No 13619808X Now JC-413903K)	19 Jun 2014
Hav Ranbir Singh Rana	(No 13619869P Now JC-413893L)	19 Jun 2014
Hav Gurmit Singh	(No 13619871M Now JC-413934K)	22 Jun 2014
Hav Shiv Mangal Singh Sengar	(No 13620028Y Now JC-413988L)	01 Sep 2014
Hav Baljinder Singh	(No 13619917K Now JC-413996K)	01 Oct 2014
Hav Jagsir Singh	(No 13620138N Now JC-413814L)	01 Jan 2014
Hav Ramvir Singh	(No 13620054A Now JC-413839X)	01 Apr 2014
Hav Chhitar Mal Jat	(No 13620294X Now JC-413845L)	01 Apr 2014
Hav Savendra Singh Chauhan	(No 13620421F Now JC-413847W)	01 May 2014
Hav Prakash Chandra Nayak	(No 13620502F Now JC-413866F)	07 May 2014
Hav Sukhvir Singh	(No 13620559W Now JC-413869P)	07 May 2014
Hav Ajaya Kumar Behera	(No 13620646K Now JC-413867K)	07 May 2014
Hav Panchu Gopal Roy, SC	(No 13619947F Now JC-413878W)	01 Jun 2014
Hav Dharm Pal Singh	(No 13621657H Now JC-413879Y)	01 Jun 2014
Hav Kuldeep Singh	(No 13620746P Now JC-413917K)	01 Jun 2014
Hav Adaga Premananda Patra	(No 13620111W Now JC-413931W)	01 Jun 2014
Hav Sanjeev Kumar	(No 13620896L Now JC-413932Y)	12 Jun 2014
Hav Harmesh Kumar	(No 13620997Y Now JC-413930N)	12 Jun 2014
Hav Kheenv Singh Bhati	(No 13620572P Now JC-413943L)	25 Jun 2014
Hav Jarnail Singh	(No 13621285H Now JC-414001F)	14 Aug 2014
Hav Satish Chand	(No 13621458P Now JC-413997M)	28 Feb 2015
*Gtd ante date seniority with out effect on pay and allces wef 01 Oct 2014.		
Hav Mahendra Singh	(No 13621466N Now JC-413955A)	01 Oct 2014
Hav Vijay Singh	(No 13621491M Now JC-413991L)	01 Nov 2014
Hav Nanda Lal Paul	(No 13620932L Now JC-413968X)	01 Nov 2014
Hav Hanuman Prasad	(No 13621473K Now JC-413944N)	01 Nov 2014
Hav Rajive Kumar	(No 13621530A Now JC-413969A)	01 Nov 2014
Hav Suresh Kumar	(No 13620887K Now JC-413816W)	29 Dec 2013
Hav Inderpal Singh	(No 13620926K Now JC-413817Y)	29 Dec 2013
Hav Sanjay Kumar	(No 13620990P Now JC-413818F)	29 Dec 2013
Hav Nawang Tamang, SM	(No 9422624N Now JC-413844H)	09 Mar 2014
Hav Padam Subba	(No 9422707Y Now JC-413848Y)	01 Apr 2014
Hav Rajesh Minhas	(No 3996331P Now JC-413904M)	02 Apr 2014
Hav Surjit Singh	(No 13621423Y Now JC-413905P)	02 Apr 2014
Hav Mahendra Singh	(No 13621428X Now JC-413906X)	03 Apr 2014
Hav Pramod	(No 13621507M Now JC-413912L)	16 Apr 2014
Hav Puran Singh	(No 13760851H Now JC-413900W)	08 Jun 2014
Hav Rajeev Kumar	(No 13621683K Now JC-413938A)	01 Nov 2014
Hav Hardev Singh, SM	(No 13621708L Now JC-413939H)	01 Nov 2014
Hav Satvir Singh	(No 2483672H Now JC-413795L)	01 Oct 2013

Hav Raghubir Singh	(No 4073587L Now JC-413797N)	01 Oct 2013
Hav Gabar Singh, SM	(No 4073603X Now JC-413842X)	01 Apr 2014
Hav Devendra Singh	(No 4073612Y Now JC-413843A)	01 Apr 2014
Hav A Durai	(No 15310933N Now JC-413841P)	01 Apr 2014
Hav Tribhawan Singh, SC	(No 4184821L Now JC-413852F)	04 May 2014
Hav Hira Singh Patwal	(No 13619057F Now JC-413887X)	01 Jun 2014
Hav Dinesh Singh	(No 4073576Y Now JC-413981F)	01 Nov 2014
Hav Bahadur Singh	(No 4185075A Now JC-413992N)	01 Dec 2014
Hav Bhagu Ram	(No 13619339A Now JC-413977Y)	01 Dec 2014
Hav Devender Singh Bhaisora	(No 4185352A Now JC-413978F)	01 Dec 2014
Hav Patil Bharat Jaysing	(No 2789445X Now JC-413812A)	01 Nov 2013
Hav More Chandrakant Dattatray	(No 2789696F Now JC-413811X)	06 Dec 2013
Hav Rajesh Kumar	(No 2789867H Now JC-413820Y)	01 Jan 2014
Hav Shinde Satish Chandrakant	(No 2789922N Now JC-413828L)	01 Mar 2014
Hav Ganesh Kumar	(No 2790019W Now JC-413983M)	01 Apr 2014
Hav Subhash Chand	(No 2790040Y Now JC-413871M)	01 Apr 2014
Hav Uda Ram	(No 2790109X Now JC-413872P)	01 Apr 2014
Hav Rajesh Kumar	(No 2790177L Now JC-413870K)	23 Apr 2014
Hav Jaswinder Singh	(No 2790181N Now JC-413910A)	01 Sep 2014
Hav Jagdish Prasad	(No 13618978P Now JC-413821P)	13 Sep 2013
Hav Prakash Rai	(No 13618912Y Now JC-413874A)	25 Sep 2013
Hav Harish Chandra Bhatt	(No 13619582X Now JC-413822K)	25 Sep 2013
Hav Rajendra Pal Singh Sengar	(No 13620043N Now JC-413823M)	01 Dec 2013
Hav Rakesh Kumar	(No 13619946Y Now JC-413825X)	19 Jan 2014
Hav Suresh Kumar	(No 13759754Y Now JC-413826A)	04 Feb 2014
Hav Bikram Singh Rai	(No 9422486X Now JC-413827H)	08 Feb 2014
Hav Pravesh Kumar Gurjar	(No 13621114W Now JC-413862L)	26 Apr 2014
Hav Rana Prem Kumar Singh	(No 13619723F Now JC-413865Y)	01 May 2014
Hav Mane Laxman Mahadeo	(No 4564852X Now JC-413888A)	21 Apr 2014
Hav Vikram Singh Rajput	(No 13620348N Now JC-413889N)	01 Jun 2014
Hav Balbir Singh	(No 13622013P Now JC-413890X)	03 Jun 2014
Hav Shivraj Jat	(No 13620581F Now JC-413916F)	01 Sep 2014
Hav Teg Bahadur	(No 13619018H Now JC-413935M)	01 Oct 2014
Hav Laxmi Charan Panigrahi	(No 13619476Y Now JC-413936P)	22 Oct 2014
Hav Kankara Malleswara Reddy	(No 2597807Y Now JC-413868M)	06 Apr 2014
Hav Roop Singh Rajput	(No 13619492W Now JC-413877N)	01 Jun 2014
Hav Basindra Kanhar	(No 13621707H Now JC-413959W)	14 Dec 2014
Hav Dharm Singh	(No 2992954L Now JC-413974L)	14 Dec 2014
Hav Kewal Singh	(No 13620688W Now JC-413975N)	14 Dec 2014
Hav Ram Kumar Ranote	(No 13620803L Now JC-413960L)	14 Dec 2014
Hav Balwant Singh	(No 3994736F Now JC-413961N)	14 Dec 2014



Hav Narinder Singh	(No 13621422W Now JC-413962W)	14 Dec 2014
Hav More Sayaji Uttam	(No 2791396W Now JC-413976W)	14 Dec 2014
Hav Raut Machhindra Vitthal	(No 2791469A Now JC-413963Y)	14 Dec 2014
Hav Ramesh Kumar	(No 13760408P Now JC-413964F)	14 Dec 2014
Hav Juj Singh	(No 13621701F Now JC-413965K)	14 Dec 2014
Hav(Clk) Shree Kumar Singh	(No 2790930Y Now JC-413785F)	01 Sep 2013
Hav(Clk) A Appala Raju	(No 13620424P Now JC-413786K)	01 Sep 2013
Hav(Clk) Naresh Kumar	(No 13620466F Now JC-413787M)	05 Sep 2013
Hav(Clk) Arvind Singh Chauhan	(No 1486543X Now JC-413799F)	01 Jan 2014
Hav(Clk) Inamdar Riyaz Ahmad Latib	(No 13620474A Now JC-413813H)	01 Feb 2014
Hav(Clk) Bosu Katragadda	(No 13620477N Now JC-413830H)	01 Apr 2014
Hav(Clk) Vikram Singh	(No 13620516F Now JC-413831L)	01 Apr 2014
Hav(Clk) Sumer Singh	(No 13620608M Now JC-413885M)	01 Aug 2014
Hav(Clk) Vikram Singh	(No 13620614F Now JC-413886P)	01 Aug 2014
Hav(Clk) Mulik Goraknath Kashinath	(No 13620679P Now JC-413911H)	01 Sep 2014
Hav(Clk) Ramesh Chand Yadav	(No 13620633M Now JC-413925H)	01 Oct 2014
Hav(Clk) Om Prakash Chaudhary	(No 13620500M Now JC-413926L)	01 Oct 2014
Hav(Clk) C Srinivas	(No 13620428L Now JC-413920K)	01 Oct 2014
Hav(Clk) Jitendra Pal Singh	(No 13620718H Now JC-413927M)	01 Oct 2014

## THE JAT REGIMENT

## To be Sub

Nb Sub	Priy Darshan Singh	(JC-490245H)	1 <sup>st</sup> Jan 2013
Nb Sub	Mehar Singh	(JC-490344L)	20 <sup>th</sup> Feb 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Jan 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Mahander Singh	(JC-490368P)	1 <sup>st</sup> Jan 2013
Nb Sub	Suresh Singh	(JC-490369X)	24 <sup>th</sup> June 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Jan 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Rajpal Singh	(JC-490393N)	1 <sup>st</sup> Jan 2013
Nb Sub	Raghubir Singh	(JC-490412N)	1 <sup>st</sup> Jan 2013
Nb Sub	Balraj Singh	(JC-490446F)	1 <sup>st</sup> Jan 2013
Nb Sub	Amar Nath	(JC-490454A)	21 <sup>st</sup> Feb 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Jan 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Ram Chandra Jat	(JC-490633A)	1 <sup>st</sup> Jan 2013
Nb Sub	Heera Ram Mundel	(JC-490262H)	1 <sup>st</sup> Feb 2013
Nb Sub	Ramvir Singh	(JC-490468A)	1 <sup>st</sup> Feb 2013
Nb Sub	Kedar Singh	(JC-490471A)	5 <sup>th</sup> Feb 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Feb 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Bhoora Singh	(JC-490483P)	1 <sup>st</sup> Feb 2013
Nb Sub	Bhoodev Singh	(JC-490550P)	1 <sup>st</sup> Feb 2013
Nb Sub	Umed Singh Chahar	(JC-490592F)	30 <sup>th</sup> Mar 2013*

\*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Feb 2013 without effect on pay & allowances.

Nb Sub	Karan Singh	(JC-490634H)	1 <sup>st</sup> Feb 2013
Nb Sub	Pawan Kumar Sharma	(JC-490635L)	1 <sup>st</sup> Feb 2013
Nb Sub	Jaivir Singh Verma	(JC-490358L)	29 <sup>th</sup> Mar 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Lala Ram Inaniya	(JC-490346W)	16 <sup>th</sup> Mar 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 2013 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Bhanwar Lal Jat	(JC-490401F)	1 <sup>st</sup> Mar 2013
Nb Sub	Satish Kumar	(JC-490484X)	1 <sup>st</sup> Mar 2013
Nb Sub	Reshpal Singh	(JC-490492W)	1 <sup>st</sup> Mar 2013
Nb Sub	Prabhu Ram	(JC-490594M)	6 <sup>th</sup> June 2013*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Mar 2013 without effect on pay & allowances.			

To be Nb Sub

Hav	Prem Pal Singh	(No (2599253K now JC-491278A)	2 <sup>nd</sup> Dec 2014*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 06 Feb 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Krishan Kumar	(No 3186026N now JC-491279H)	16 <sup>th</sup> Feb 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Dec 2014 without effect on pay & allowances.			
Hav	Rambilas Choyal	(No 3187125H now JC-491280X)	1 <sup>st</sup> Jan 2015
Hav	Anil Kumar	(No 3188375W now JC-491281A)	4 <sup>th</sup> Feb 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Feb 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Babu Lal Jat	(No 3187146Y now JC-491282H)	1 <sup>st</sup> Feb 2015
Hav	Shish Pal Sharma	(No 3188329F now JC-491283L)	20 <sup>th</sup> Feb 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Feb 2015 without effect on pay & allowances.			
Hav	Shrawan Kumar Jat	(No 3186978N now JC-491284N)	2 <sup>nd</sup> Mar 2015*
*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2015 without effect on pay & allowances.			

VN RAVEENDRAN  
Under Secy.

ARMY BRANCH

No 183, dated 9<sup>th</sup> July 2015—The President is pleased to make the following promotions :-

REGULAR ARMY

INFANTRY

BRIGADE OF THE GUARDS

To be Subedar Major

Sub	Jasbinder Singh	JC-404036K	01 May 2015
Sub	Chandra Prakash	JC-404416H	01 Jun 2015
To be Subedar Major (Clerk)			
Sub (Clk)	Shamshad Alam	JC-404109L	01 May 2015
To Be Subedar Major (SKT)			
Sub (SKT)	Sanjeev Kumar	JC-404127N	01 Mar 2015
To Be Subedar Major (Rt)			
Sub (RT)	Aditya Kumar Sharma	JC-224154P	01 May 2015

## To Be Subedar

Nb Sub	Ajmer	JC-404806L	01 Mar 2015
Nb Sub	Guljaree Ram	JC-404931P	01 Jan 2015
Nb Sub	Hukum Singh Chiral	JC-404967N	24 Mar 2015*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Mar 2015.			
Nb Sub	Yashwant Singh	JC-404720M	03 Mar 2015*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Mar 2015.			
Nb Sub	Sube Singh	JC-404955Y	01 Apr 2015
Nb Sub	Surendar Singh Puniya	JC-405015A	01 Apr 2015
Nb Sub	Bijit Hazarika	JC-405002H	02 Mar 2015*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Mar 2015.			
Nb Sub	Fateh Singh	JC-404880M	23 Mar 2015*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Jan 2015.			
Nb Sub	Vikram Singh	JC-404652K	02 Mar 2015*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Mar 2015.			
Nb Sub	Chhote Lal	JC-404528H	01 Mar 2015
Nb Sub	Jitendra Kumar Kundal	JC-404772H	01 Apr 2015
Nb Sub	Ram Bhaj Sukhralia	JC-404855N	07 Apr 2015*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Apr 2015.			
Nb Sub	Gordhan Lal Jat	JC-404951H	01 Apr 2015
Nb Sub	Karan Singh	JC-404959P	01 May 2015
Nb Sub	Vipan Kumar	JC-404845K	01 Apr 2015
Nb Sub	Ram Niwas Puniya	JC-404849A	01 May 2015
Nb Sub	Virendra Singh	JC-404850P	02 May 2015*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 May 2015.			
Nb Sub	Lakshman Prasad Singh	JC-404627L	01 Apr 2015
Nb Sub	Satya Narayan Das	JC-404682F	01 Apr 2015
Nb Sub	Jang Bahadur	JC-404761W	01 Apr 2015
Nb Sub	Shyam Sundar	JC-404636M	23 Mar 2015*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 05 Mar 2015.			
Nb Sub	Shiwa Kanta	JC-404637P	01 May 2015
Nb Sub	Dongre Ramu Bapurao	JC-404944M	01 Mar 2015
Nb Sub	Randhir Singh	JC-404834X	01 Apr 2015
Nb Sub	Ram Sajeewan Singh	JC-404924Y	01 Apr 2015
Nb Sub	Virendra Kumar Yadaw	JC-404936N	01 Apr 2015
Nb Sub	Vinod Kumar Rana	JC-404568K	01 Apr 2015
Nb Sub	Sukhapati Prasad Dixit	JC-404770X	06 May 2015*
*Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allce wef 01 Apr 2015.			

## To Be Subedar (Clerk Sd)

Nb Sub (ClkSD)	RS Kurra	JC-404977X	01 Apr 2015
Nb Sub (ClkSD)	Sandeep Kumar	JC-404990F	01 May 2015
Nb Sub (ClkSD)	Ganesh Kumar Annaduraia	JC-404999W	01 May 2015

Nb Sub (ClkSD)	Yogendra Pal Singh	JC-405000X	01 May 2015
Nb Sub (ClkSD)	Ramesh Chandra	JC-405009M	01 May 2015
Nb Sub (ClkSD)	Shankar Singh Rathore	JC-405017L	01 May 2015
Nb Sub (ClkSD)	Netra Prakash	JC-405018N	01 May 2015
Nb Sub (ClkSD)	Botangle Pandurang Bhau	JC-405076X	01 Jun 2015

## To Be Subedar (RT)

Nb Sub (RT)	Lalita Prasad	JC-403593W	01 May 2015
-------------	---------------	------------	-------------

## ARMOURED CORPS

## (To be NBRIS)

1	DFR(CLKSD) BIKASH CHAKROBORTY	(No. 15469642A now JC246817P)	01 Jan 2015
2	DFR(CLKSD) JITENDER SINGH	(No. 15469695Y now JC246818X)	01 Jan 2015
3	DFR(CLKSD) SATISH KUMAR SINGH	(No. 15469693N now JC246874W)	* 07 Jan 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
4	DFR(CLKSD) PRADEEP KUMAR CHOUDHARY	(No. 15469588X now JC246875Y)	*05 Jan 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
5	DFR(CLKSD) RAJESH KUMAR	(No. 15469556P now JC246876F)	*06 Jan 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
6	DFR(OPR/GNR) SN SINGH RATHORE	(No. 1099607H now JC246805A)	01 Jan 2015
7	DFR(OPR/GNR) SHER SINGH	(No. 15462442F now JC246872L)	*13 Jan 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)		
8	DFR(DVR/OPR) SURENDER SINGH	(No. 15465697M now JC246871H)	*10 Jan 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)		
9	DFR(CLKSD) ROHITASHV KUMAR	(No. 15469319L now JC246877K)	*16 Jan 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
10	DFR(CLKSD) MAHENDRA SINGH KHATANA	(No. 15469554K now JC246883X)	*02 Feb 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances)		
11	DFR(CLKSD) NARATTOM ROY	(No. 15469636M now JC246816M)	*08 Jan 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
12	DFR(SKT) UMED SINGH	(No. 15464302N now JC246868H)	01 Feb 2015
13	DFR(OPR/GNR) RANJAN RAKESH	(No. 15462112H now JC246864M)	* 06 Jan 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2012 without effect on pay and allowances)		
14	DFR(DVR/GNR) BALWINDER SINGH DOGARA	(No. 15467307X now JC246794Y)	*13 Jan 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances)		
15	DFR(OPR/GNR) MUKESH KUMAR	(No. 15465759F now JC246856N)	*01 Jan 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances)		
16	DFR(DVR/GNR) RAJESH KUMAR	(No. 15462525M now JC246870A)	01 Feb 2015
17	DFR(GNR/OPR) KAUSHAL KUMAR	(No. 15467926L now JC246881M)	* 03 Feb 2015

	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances)		
18	DFR(OPR/GNR) PARDEEP KUMAR	(No. 15463673K now JC246889Y)	01 Feb 2015
19	DFR(DVR/OPR) SISH RAM DHETARWAL	(No. 15467778L now JC246892Y)	*20 Jan 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 05 Oct 2014 without effect on pay and allowances)		
20	DFR(OPR/DVR) ALWEL KUMAR	(No. 15467337P now JC246893F)	* 20 Jan 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances)		
21	DFR(GNR/OPR) MUKESH KUMAR	(No. 15468855F now JC246913K)	* 28 Jan 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
22	DFR(OPR/DVR) DAITYARI BEHERA	(No. 8033962F now JC246894K)	01 Feb 2015
23	DFR(OPR/GNR) PRADIP KUMAR SINGH	(No. 15464602P now JC246895M)	* 27 Jan 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances)		
24	DFR(GNR/DVR) OM KARAN	(No. 15464537A now JC246896P)	*10 Feb 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances)		
25	DFR(DVR/GNR) BALBINDER SINGH	(No. 15467192P now JC246897X)	01 Feb 2015
26	* DFR(DVR/GNR) HIRA RAM	(No. 15463959Y now JC246899H)	*28 Jan 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 12 Oct 2014 without effect on pay and allowances)		
27	DFR(GNR/OPR) A SIVA KUMAR	(No. 15468069H now JC246905L)	*02 Feb 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
28	DFR(DVR/GNR) JEYA SINGH N	(No. 15468193K now JC246906N)	* 02 Feb 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances)		
29	DFR(OPR/GNR) PARSHOTAM SINGH	(No. 15464669N now JC246918H)	* 02 Feb 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances)		
30	DFR(DVR/OPR) SUBHASH CHANDRA	(No. 15465210N now JC246920A)	*02 Feb 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances)		
31	DFR(OPR/GNR) KULWINDER SINGH	(No. 15466422L now JC246921H)	* 02 Feb 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances)		
32	DFR(GNR/OPR) MAHIPAL SINGH	(No. 15466411Y now JC246922L)	*02 Feb 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances)		
33	DFR(DVR/OPR) SANJEEV SINGH	(No. 15463395F now JC246924W)	*04 Feb 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 15 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
34	DFR(DVR/GNR) RAM SIHASAN SHARMA	(No. 15462823H now JC246855L)	01 Feb 2015
35	DFR(CLKSD) DHARMENDER	(No. 15469640P now JC246880K)	* 09 Feb 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
36	DFR(OPR/DVR) TUL BAHADUR CHHETRI	(No. 1099207W now JC246803P)	*01 Jan 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 13 Nov 2014 without effect on pay and allowances)		
37	DFR(GNR/DVR) RAM BHANWAR SINGH	(No. 15463074K now JC246866X)	* 13 Jan 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
38	DFR(GNR/OPR) GURDIP SINGH	(No. 15467326H now JC246873N)	* 02 Feb 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances)		
39	DFR(GNR/DVR) GANGA SINGH	(No. 15463432K now JC246888W)	01 Feb 2015

40	DFR(DVR/GNR) SURESH CHANDRA YADAVA*	(No. 15464891P now JC246907W)	*02 Feb 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances)		
41	DFR(OPR/GNR) KRISHAN KUMAR	(No. 15462568F now JC246919L)	*03 Feb 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances)		
42	DFR(DVR/GNR) RANBIR SINGH	(No. 15464465F now JC246925Y)	*12 Feb 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Nov 2014 without effect on pay and allowances)		
43	DFR(OPR/GNR) REETESH KUMAR MISHRA	(No. 15464574N now JC246928M)	*16 Feb 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)		
44	FR(DVR/OPR) SACHINDER KUMAR	(No. 15464352Y now JC246938W)	*14 Feb 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances)		
45	DFR(DVR/GNR) HARE RAM SINGH*	(No. 15464034P now JC246939Y)	*19 Feb 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 12 Oct 2014 without effect on pay and allowances)		
46	DFR(GNR/DVR) BIJENDER SINGH	(No. 15467643K now JC246901P)	01 Mar 2015
47	DFR(DVR/GNR) AJAI VIR SINGH BIAS	(No. 15468382N now JC246902X)	* 02 Mar 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allowances)		
48	DFR(OPR/GNR) DIBYENDU PANJA	(No. 15464758M now JC246914M)	01 Mar 2015
49	DFR(DVR/GNR) LAL CHAND	(No. 15463110K now JC246941W)	* 21 Feb 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
50	DFR(DVR/OPR) ZALA SAHDEV SINH	(No. 15467166N now JC246942Y)	* 17 Feb 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
51	DFR(OPR/DVR) MANOHAR LAL	(No. 15467688K now JC246947X)	*21 Feb 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 26 Dec 2014 without effect on pay and allowances)		
52	DFR(DVR/GNR) PALA RAM	(No. 15463400F now JC246948A)	* 19 Feb 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances)		
53	DFR(OPR/GNR) MAHENDRA SINGH	(No. 15465035K now JC246972W)	01 Mar 2015
54	DFR(CLKSD) DARMENDRA PRATAP SINGH	(No. 15469545H now JC246882P)	* 26 Feb 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Apr 2014 without effect on pay and allowances)		
55	DFR(CLKSD) SHARMA PARESH KUMAR	(No. 15469610X now JC246884A)	* 02 Mar 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allowances)		
56	DFR(CLKSD) KRISHAN BIHARI	(No. 15469618K now JC246885H)	01 Mar 2015
57	DFR(SKT) JANAK SINGH	(No. 15464830X now JC246976M)	01 Mar 2015
58	DFR(OPR/GNR) MANOJ RL	(No. 15491743N now JC246820P)	* 01 Feb 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)		
59	DFR(OPR/GNR) BANKI RAMESH	(No. 15467059M now JC246833M)	* 05 Mar 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Dec 2014 without effect on pay and allowances)		
60	DFR(OPR/GNR) MAHENDER SINGH	(No. 15464640L now JC246887N)	*02 Mar 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allowances)		
61	DFR(GNR/DVR) D SANKARAN	(No. 15467331N now JC246904H)	* 03 Feb 2015

	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
62	DFR(DVR/GNR) NAND LAL SINGH YADAV	(No. 15464613F now JC246908Y)	* 04 Mar 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allowances)		
63	DFR(GNR/DVR) SATYA NARAYAN	(No. 15465426P now JC246909F)	*03 Mar 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allowances)		
64	DFR(DVR/OPR) VED PRAKASH	(No. 15463402M now JC246910W)	*02 Mar 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allowances)		
65	DFR(OPR/GNR) NAND KISHOR SUMAN	(No. 15462679Y now JC246911Y)	01 Mar 2015
66	DFR(DVR/GNR) RAM NIWAJ MISHARA	(No. 15464081M now JC246915P)	01 Mar 2015
67	DFR(GNR/OPR) OM KANWAR	(No. 15464176M now JC246916X)	01 Mar 2015
68	DFR(GNR/OPR) RAJENDAR PRASHAD	(No. 15463955H now JC246923N)	01 Mar 2015
69	DFR(OPR/GNR) BHUPENDRA	(No. 15467988L now JC246931M)	*02 Mar 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allowances)		
70	DFR(DVR/GNR) HARMAT SINGH	(No. 15462250K now JC246935H)	*01 Mar 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Oct 2014 without effect on pay and allowances)		
71	DFR(OPR/GNR) ARUN KUMAR SINGH	(No. 15466050L now JC246954N)	*28 Feb 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
72	DFR(OPR/DVR) SUBHASH CHANDRA	(No. 15463930W now JC246940N)	*17 Feb 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 07 Dec 2014 without effect on pay and allowances)		
73	DFR(DVR/GNR) HARI PAL SINGH	(No. 15464258P now JC246959M)	01 Mar 2015
74	DFR(DVR/OPR) BEDBIR SINGH	(No. 15464451F now JC246960F)	* 02 Mar 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allowances)		
75	DFR(SOWRD) SHEDGE GANPAT MUGUT RAO	(No. 15465800M now JC246965A)	* 4 Mar 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances)		
76	DFR(GNR/DVR) JANESHWAR CHOUBEY	(No. 15465052K now JC246973Y)	* 10 Mar 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allowances)		
77	DFR(OPR/GNR) KRISHNA KUMAR DUBEY	(No. 15464623L now JC246977P)	*18 Mar 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allowances)		
78	DFR(DVR/OPR) RAVINDER PAL	(No. 15466441W now JC246898A)	01 Mar 2015
79	DFR(GNR/OPR) AVDHESH KUMAR	(No. 15464441X now JC246900M)	*02 Mar 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allowances)		
80	DFR(OPR/GNR) SATYA PRAKASH	(No. 15468439X now JC246903A)	01 Mar 2015
81	DFR(DVR/GNR) MANOJE KUMAR SINGH	(No. 15464614K now JC246929P)	* 09 Mar 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
82	DFR(OPR/GNR) SUBH KARAN	(No. 15465538P now JC246949H)	01 Apr 2015
83	DFR(OPR/GNR) KULDEEP SINGH	(No. 15465768H now JC246950X)	01 Apr 2015
84	DFR(DVR/OPR) MANJEET SINGH	(No. 15465715K now JC246964X)	*17 Mar 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		

85	DFR(GNR/OPR) SURENDER SINGH *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allowances)	(No. 15468741W now JC246966H)	* 11 Mar 2015
86	DFR(DVR/OPR) PANKAJ KUMAR *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allowances)	(No. 15466105K now JC246978X)	*25 Mar 2015
87	DFR(GNR/DVR) CHRISTOBER RAJAN *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 04 Feb 2015 without effect on pay and allowances)	(No. 15465364A now JC246983H)	* 21 Mar 2015
88	DFR(OPR/GNR) KHIRESWAR KOLITA *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 04 Feb 2015 without effect on pay and allowances)	(No. 15466973W now JC246985N)	* 21 Mar 2015
89	DFR(DVR/OPR) K THANGAMANI *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allowances)	(No. 15464507H now JC246943F)	* 04 Apr 2015
90	DFR(GNR/OPR) MUSTAK AHMAD *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allowances)	(No. 15464601M now JC246944K)	* 04 Apr 2015
91	DFR(DVR/OPR) KAMESWAR DAS *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allowances)	(No. 15466072K now JC246945M)	* 04 Apr 2015
92	DFR(DVR/OPR) MITTARPAL SINGH	(No. 15465934L now JC246951A)	01 Apr 2015
93	DFR(DVR/OPR) RAJKISHORE NAYAK	(No. 15464855K now JC246957F)	01 Apr 2015
94	DFR(DVR/OPR) PG UDAYA KUMAR *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 26 Jan 2015 without effect on pay and allowances)	(No. 1099678K now JC246988F)	* 02 Apr 2015
95	DFR(GNR/OPR) ASHOK KUMAR *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allowances)	(No. 15467619N now JC246989K)	* 01 Apr 2015
96	DFR(GNR/OPR) BAKI GURUNATHU *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allowances)	(No. 15466058X now JC246990Y)	* 04 Apr 2015
97	DFR(DVR/OPR) MANIRUL SHEIKH	(No. 15464739F now JC246937N)	01 Apr 2015
98	DFR(OPR/GNR) ASHOK KUMAR	(No. 15465582Y now JC246974F)	01 Apr 2015
99	DFR(CLKSD) SURINDER KUMAR *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Apr 2015 without effect on pay and allowances)	(No. 15469739L now JC246933X)	* 09 Apr 2015
100	DFR(DVR/GNR) ASHOK KUMAR SWAIN	(No. 15462683F now JC246912F)	01 Apr 2015
101	DFR(DVR/OPR) SUBHASH	(No. 15463178L now JC246955W)	01 Apr 2015
102	DFR(GNR/DVR) SURENDRA SINGH	(No. 15469935L now JC246958K)	01 Apr 2015
103	DFR(GNR/OPR) DHARAM VEER	(No. 15464735L now JC246967L)	01 Apr 2015
104	DFR(DVR/GNR) MUKESH KUMAR *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Feb 2015 without effect on pay and allowances)	(No. 15464704L now JC246975K)	* 29 Apr 2015
105	DFR(OPR/DVR) ARJUN SINGH *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allowances)	(No. 15463410L now JC246993M)	* 11 Apr 2015
106	DFR(DVR/GNR) SANGALE BABAN SUKHDEV *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Mar 2015 without effect on pay and allowances)	(No. 15466597N now JC246994P)	* 11 Apr 2015
107	DFR(DVR/OPR) RAHUL KUMAR *(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 02 Apr 2015 without effect on pay and allowances)	(No. 15468569A now JC246998L)	* 24 Apr 2015



108	DFR(DVR/GNR) DINESH KUMAR CHAURASIA	(No. 15462390W now JC247003H)	01 May 2015
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 11 Jan 2015 without effect on pay and allowances)		
109	DFR(DVR/OPR) DHEERAJ KUMAR GUPTA	(No. 15462519Y now JC246854H)	01 Jan 2015
110	DFR(DVR/GNR) DAULAT	(No. 15470177L now JC246674A)	* 26 Jul 2014
	*(Granted Seniority in the Rank of NBRIS wef 01 Jul 2014 without effect on pay and allowances)		

RAJEEV JAUHARY  
Under Secy.

#### MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 184, dated 10<sup>th</sup> July 2015—President is pleased to permit IC-25816 Gen Bikram Singh, PVSM, UYSM, AVSM, SM, VSM, ADC (Retd) to relinquish the appointment of Honorary Colonel of Rashtriya Rifles in an Ex-Officio capacity with effect from 31 Jul 2014(A/N).

President is pleased to permit DR-10298 Lt Gen Vimal Arora, PVSM, AVSM, VSM\*\*, PHDS (Retd) to relinquish the appointment of Colonel Commandant of Army Dental Corps with effect from 22 Mar 2015 (A/N).

President is pleased to permit IC-31638 Lt Gen Om Prakash, PVSM, UYSM, AVSM, SM (Retd) to relinquish the appointment of Colonel of the Kumaon and Naga Regiment & Kumaon Scouts with effect from 30 Apr 2015(A/N).

President is pleased to permit IC-30503 Lt Gen Jai Prakash Nehra, PVSM, AVSM\*\*, ADC (Retd) to relinquish the appointment of Colonel of the Madras Regiment with effect from 31 Oct 2014 (A/N).

President is pleased to permit IC-31324 Lt Gen K Surendranath, PVSM, AVSM\*\*, SM, VSM (Retd) to relinquish the appointment of Colonel of the Central India Horse with effect from 28 Feb 2015 (A/N).

President is pleased to permit IC-31324 Lt Gen K Surendranath, PVSM, AVSM\*\*, SM, VSM (Retd) to relinquish the appointment of Colonel of the 74 Armoured Regiment with effect from 28 Feb 2015 (A/N).

President is pleased to permit IC-36527 Lt Gen RC Chadha, AVSM, VSM (Retd) to relinquish the appointment of Colonel of the 88 Armoured Regiment with effect from 31 Jan 2015 (A/N).

President is pleased to permit IC-31324 Lt Gen K Surendranath, PVSM, AVSM\*\*, SM, VSM (Retd) to relinquish the appointment of Colonel of the 41 Armoured Regiment with effect from 28 Feb 2015 (A/N).

President is pleased to permit IC-31324 Lt Gen K Surendranath, PVSM, AVSM\*\*, SM, VSM (Retd) to relinquish the appointment of Colonel of the 71 Armoured Regiment with effect from 28 Feb 2015 (A/N).

President is pleased to permit IC-31118 Lt Gen BS Sachar, AVSM, SM, VSM\*\*(Retd) to relinquish the appointment of Colonel of the Punjab Regiment with effect from 28 Feb 2015 (A/N).

President is pleased to permit IC-31324 Lt Gen K Surendranath, AVSM\*\*, SM, VSM (Retd) to relinquish the appointment of Colonel of the 55 Armoured Regiment with effect from 28 Feb 2015 (A/N).

President is pleased to permit IC-36527 Lt Gen RC Chadha, AVSM, VSM (Retd) to relinquish the appointment of Colonel of the 66 Armoured Regiment with effect from 31 Jan 2015 (A/N).

President is pleased to permit IC-31134 Lt Gen Gautam Moorthy, AVSM, VSM (Retd) to relinquish the appointment of Colonel Commandant of Army Ordnance Corps with effect from 31 May 2014 (A/N).

President is pleased to permit IC-31420 Lt Gen AK Mehta, AVSM, VSM (Retd) to relinquish the appointment of Colonel of the 84 Armoured Regiment with effect from 31 Dec 2014 (A/N).

President is pleased to permit IC-31420 Lt Gen AK Mehta, AVSM, VSM (Retd) to relinquish the appointment of Colonel of the 43 Armoured Regiment with effect from 31 Dec 2014 (A/N).

President is pleased to permit IC-30016 Lt Gen Anil Chait, PVSM, AVSM, VSM, ADC (Retd) to relinquish the appointment of Colonel of the 10 Armoured Regiment with effect from 30 Jun 2014 (A/N).

President is pleased to permit IC-31521 Lt Gen SH Kulkarni, PVSM, AVSM, VSM\*\* (Retd) to relinquish the appointment of Colonel of the 54 Armoured Regiment with effect from 30 Nov 2014 (A/N).

President is pleased to permit IC-31521 Lt Gen SH Kulkarni, PVSM, AVSM, VSM\*\* (Retd) to relinquish the appointment of Colonel of the 48 Armoured Regiment with effect from 30 Nov 2014 (A/N).

President is pleased to permit IC-31521 Lt Gen SH Kulkarni, PVSM, AVSM, VSM\*\* (Retd) to relinquish the appointment of Colonel of the 75 Armoured Regiment with effect from 30 Nov 2014 (A/N).

President is pleased to permit IC-31521 Lt Gen SH Kulkarni, PVSM, AVSM, VSM\*\* (Retd) to relinquish the appointment of Colonel of the 68 Armoured Regiment with effect from 30 Nov 2014 (A/N).

President is pleased to permit IC-31014 Lt Gen VK Saxena, PVSM, AVSM, VSM (Retd) to relinquish the appointment of Colonel Commandant of Corps of the Army Air Defence with effect from 31 May 2015 (A/N).

President is pleased to permit IC-30462 Lt Gen AS Chabbewal, PVSM, AVSM, YSM, ADC (Retd) to relinquish the appointment of Colonel of the 67 Armoured Regiment with effect from 30 Sep 2014 (A/N).

President is pleased to permit IC-30408 Lt Gen VK Narula, AVSM, SM, ADC (Retd) to relinquish the appointment of Colonel Commandant of the Regiment of Artillery with effect from 31 Oct 2014 (A/N).

President is pleased to permit IC-31052 Lt Gen Shakti Gurung, PVSM, UYSM, AVSM, VSM (Retd) to relinquish the appointment of Colonel of the Grenadiers Regiment with effect from 31 Oct 2014 (A/N).

President is pleased to permit IC-38612 Maj Gen RP Bhadrans (Retd) to relinquish the appointment of Colonel of the 07 Cavalry with effect from 30 Nov 2014 (A/N).

President is pleased to permit IC-34337 Maj Gen AK Madholkar, VSM (Retd) to relinquish the appointment of Colonel of the 19 Armoured Regiment with effect from 30 Apr 2014 (A/N).

President is pleased to permit IC-34382 Maj Gen TPS Waraich, VSM\*\*(Retd) to relinquish the appointment of Colonel of the 11 Armoured Regiment with effect from 30 Nov 2014 (A/N).

President is pleased to permit IC-34423 Maj Gen Alok Deb, (Retd), to relinquish the appointment of Colonel Commandant of the Regiment with Artillery effect from 31 Dec 2014 (A/N).

President is pleased to permit IC-35153 Maj Gen DK Purohit, AVSM, SM, VSM (Retd) to relinquish the appointment of Colonel of the Mahar Regiment with effect from 31 Jan 2015 (A/N).

President is pleased to permit IC-35150 Maj Gen Niraj Pathak, (Retd) to relinquish the appointment of Colonel of the 73 Regiment with effect from 31 Mar 2015 (A/N).

SC KHANSILI  
Dir/MS (X)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में  
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015  
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,  
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

[www.dop.nic.in](http://www.dop.nic.in)

DOPGIPF—[PART I—SEC.4]—91 Copies.